

प्रकाशक  
इंद्र चंद्र नारंग  
हिन्दी भवन  
जालंधर और इलाहाबाद

## निवेदन

त्रिपुरी कांग्रेस के बाद राजनीतिक क्षेत्र से कुछ दिन के लिए अवकाश ग्रहण करने पर मैंने फुरसत के वक्त फिर से साहित्य-सेवा करने का निश्चय किया।

जेल से छूटे पाँच साल के करीब हो चुके थे। जेल में पढ़ने लिखने के लिए काफी अवकाश मिला था, पर बाहर निकलने के बाद विलकुल ही नहीं।

मैंने पहले अपने अप्रकाशित नाटकों में से कुछ को दोहराना चाहा। 'सेवा-पथ' को सबसे पहले मैंने हाथ में लिया।

मुझे हर्ष है कि नागपुर जेल में करीब छै वर्ष पहले लिखा हुआ और गत अगस्त मास में संशोधन किया हुआ यह नाटक अब पुस्तकाकार प्रकाशित होने जा रहा है।

'माधुरी' में यह नाटक गत दिसंबर, जनवरी और फरवरी मास में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था।

गोपाल वाग

जबलपुर

३१ मई, १९४०

गोविंददास

# पात्र, स्थान और समय

## मुख्य पात्र

### पुरुष

- ° दीनानाथ—एक निर्धन युवक ।
- श्रीनिवास—एक धनवान युवक ।
- शक्तिपाल वर्मा—वकील, पीछे से बैरिस्टर, पीछे से मिनिस्टर ।

### स्त्री

- कमला—दीनानाथ की पत्नी ।
- सरला—श्रीनिवास की पत्नी ।
- मार्गरेट—शक्तिपाल की अँगरेज पत्नी ।

## अन्य पात्र

मिनिस्टर के सेक्रेटरी, सेठ, जमींदार, ट्रेड यूनियन का सेक्रेटरी, पारसी, बंगाली, पंजाबी, मगडा, युवक, बच्चे, चपरामी नगर-निरामी आदि ।

## स्थान

एक नगर

## समय

१९२२ ई० से १९२६ ई० तक

# सेवा-पथ

## पहला अंक

### पहला दृश्य

स्थान—श्रीनिवास के मकान का एक कमरा ।

समय—संध्या ।

[ कमरा पुराने-रईसों के बैठकखाने के सदृश सजा है । तीन ओर दीवालें हैं । दीवालें और छत ( सीलिंग ) पीले तैल रंग से रँगी हुई हैं, जिस पर रंग-विरंगे वेल-बूटे हैं । पीछे और दोनों ओर की दीवालोंने अनेक दरवाजे और खिड़कियाँ हैं, जिनके किवाड़ों में काँच लगे हैं । अनेक दरवाजे और खिड़कियाँ खुली हुई हैं, जिनमें से बाहर के उद्यान का कुछ भाग दिखाई देता है, जिसे झूठे-दूर सूर्य की किरणें रँग रही हैं । कमरे की जमीन पर मिर्जापुरी ऊनी गलीचा बिछा है । गलीचे पर गद्दा और मसनद लगे हुए हैं । गद्दे पर मसनद से टिका हुआ श्रीनिवास बैठा है । उसके हाथ में खुला हुआ 'लीडर' पत्र है । श्रीनिवास की दाहनी ओर शक्तिगल बैठा है और उसके कंधे के सहारे भुका पत्र को देख रहा है । बाईं तरफ दीनानाथ बैठा हुआ है । उसकी दृष्टि भी पत्र पर ही है । तीनों ही युवक हैं, अवस्था २३ और २४ वर्ष के बीच में है । श्रीनिवास गौरवर्ण का कुछ लम्बा और दुबला सुंदर व्यक्ति है । छोटी-छोटी नोक कटी ( नटर प्लाई ) मूँछें हैं । शेरवानी तथा चूड़ीदार पाजामा पहने हुए नंगे सिर है । बाल अँगरेजी ढंग से कटे हैं । शक्तिपाल साँवले रंग और सामान्य ऊँचाई एवं शरीर का मनुष्य है । मूँछें मूँड़ी हुई हैं । कपड़े अँगरेजी ढंग के हैं । उसका सिर भी नंगा है । लंबे बाल उलटकर सँवारे हुए हैं । चश्मा लगाये हुए है, पर-चश्मा भिर पर चढ़ा हुआ है । दीनानाथ साधारण तथा सुंदर, कुछ ठिगना, दुबला-पतला गेहुँए रंग का आदमी है ।

छोटी-छोटी मूँछें हैं। खादी की लंबी कमीज और उस पर खादी के चारखाने का गुत्ते गलेवाला छोटा कोट पहने है। कोट के नीचे कमीज लटक रही है। खादी की मोटी चोली है। भिर पर गांधी टोपी है। ]

भीमिनाथ—हलो, शक्तिपाल, फस्ट डिवाजन. फस्ट इन लॉ इन दि होल युनिवर्सिटी ! मोस्ट क्रेडिटेबल इंडीड ! माई हार्टी कांफ्रेच्युलेशंस ।

दीनानाथ—हाँ, हाँ. अनेक बधाइयाँ !

शक्तिपाल—(मुसकरते हुए) मैं तो एल-एल० बी० में फस्ट आया. पर दीनानाथ, तुम तो एम० ए० में फस्ट आये थे। एल-एल० बी० में फस्ट आने के बनिस्वन एम० ए० में युनिवर्सिटी-भर में फस्ट आना कहीं ज्यादा क्रेडिटेबल है। वह तो तुमने पढ़ना छोड़कर नान-कोआपरेशन मूवमेंट आइडन कर लिया और जेल चले गये. नहीं तो एल-एल० बी० में मैं नहीं, पर तुम फस्ट आते।

भीमिनाथ—तुम दोनों में दुःख तो मुझे होना चाहिए। तुम दोनों ने साथ साथ लिया। मुझे ही बी० ए० में थर्ड डिवाजन मिला।

शक्तिपाल—यह और मुनिम ! हमनी बीमारी के बाद भी पान हो जाता कोई गुर्खा को पान न हुई और थर्ड डिवाजन में आना रोज की पान हो गई। फिर, भीमिनाथ, अगर मैं तुम्हारे सुवाधिक दीनानाथ होना तो पान होना ही मुश्किल था; कल्पे हैं न कि लक्ष्मी और मरम्यनी कर्मा एक साथ नहीं रहती, पर तुम में तो दोनों ने साथ-साथ देग डाल रक्खता है। ( पान में लक्ष्मी कर्मा फिर से आँसू के टपकते हुए ) दीनानाथ, अगर मैं तो देग साल को विनायक चला। बैरिस्टर डॉक्टर १९२३ के सिद्धि में लौटना. पर तुम अन्न क्या करोगे क्योंकि नान-कोआपरेशन तो गपन हो रहा है ?

कार्य करूँगा ।

श्रीनिवास—अच्छा, चाय भी तो पीते चलो । ( दीनानाथ की ओर संकेत करके ) ये तो पीयेंगे नहीं ।

शक्तिपाल—अच्छी बात है । ( चाय के सामान के निकट खिसक कर ) ऐसे तो तुम जो चाहे कर सकते हो, पर हम दोनों में जो फ्रॉडशिप है, उसके सवव से तुम्हें सलाह देने का मुझको ज़रूर हक है ।

दीनानाथ—अवश्य, अवश्य !

शक्तिपाल—मैंने तुमको कई दफ़ा कहा है और फिर कह रहा हूँ, तुमने पढ़ना छोड़ उस आवे पागल गाँधी के नान-कोआपरेशन में शामिल होकर गलती को और अब फिर गलती कर रहे हो ।

श्रीनिवास—मैं भी तुमसे सर्वथा सहमत हूँ । (चायदानी से चाय प्याले में डालता है । )

शक्तिपाल—न-जाने कितनी मुसीबतें उठाकर तो तुम एम० ए० हुए, क्योंकि तुम्हारे प्रिंसिपल्स के मारे तो नाकों दम ठहरा; किसी से स्कॉलरशिप न लोगे, किसी तरह की मदद मंजूर न करोगे । ( चायदानी से चाय प्याले में डालते हुए ) ट्यूशन कर, पेपर्स में आर्टिकल लिख, कॉलेज की फीस चुकाई, किताबों की कीमत दी, पेट भरा, घरवालों का गुज़र-वसर चलाया । इतनी मुश्किल से पढ़ना जारी रखवा । वह बीच ही में छोड़ कर जेल चल दिये, जिसका कोई नतीजा निकल ही न सकता था और फिर वही फाकेमस्ती का रास्ता ।

श्रीनिवास—और फिर बेचारी उस पत्नी की ओर देखना भी तो तुम्हारे किसी-न-किसी सिद्धांत के अन्तर्गत आता होगा ? ( दूध डालते हुए ) यदि यही कार्य की दिशा रखनी थी तो विवाह क्यों किया था ? ( शक्कर डालता है )

दीनानाथ—कहाँ करता था, भाई, माताजी का ऐसा आग्रह हुआ कि उसे टालना असंभव था ।

श्रीनिवास—अब यदि वे स्वर्ग में हैं तो पत्नी की ओर देखना होगा।

दीनानाथ—उसे मैं समझा लूँगा।

शक्तिपाल—पर बात उसे समझाने की है ही नहीं! पढ़ना छोड़ भी दिया है तो तुम प्रोफेसर हो सकते हो। अगर तुम प्रोफेसर हो गये, जो किलासकों में फ्लट स्टैंड होने के सबब मुश्किल नहीं है, तो तुम्हारे प्रिंसिपल्स में धक्का कहाँ लगता है ?

दीनानाथ—यह बात नहीं है, शक्तिपाल ! सारा प्रश्न यह है कि जहाँ एक बार पैर में बेड़ो पड़ो कि फिर छुटकारा नहीं; जीवन ही इस प्रकार का हो जाता है कि मनुष्य उस में परिवर्तन करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। सेवा के जिस पथ पर चलने का मैं वहाँ से विचार कर रहा हूँ, वह पथ ही परिवर्तित हो जायगा।

शक्तिपाल—(दीवार चार पीने हुए) अच्छा, जरा इसी पर बहस हो जाय कि तुम्हारा सोना हुआ सेवा-पथ ही कहाँ तक दुरुस्त है। देवता, मुक्त का गिरद्वार हम नाना हो करना चाहते हैं, इसमें तो कोई

अधिकारों को मैं आवश्यक न समझता तो असहयोग-आंदोलन में क्यों सम्मिलित होता ।

शक्तिपाल—नहीं-नहीं, पर तुम्हारा यह खयाल जरूर है कि बिना सियासी इख्तियारात और दौलत के भी आदमी दुनिया को भलाई और गरीबों की खिदमत कर सकता है ।

दीनानाथ—हाँ, और इसी विचार को व्यवहार में लाकर मैं देखना चाहता हूँ कि यह कहाँ तक ठीक है ।

शक्तिपाल—तुम जानते हो मैं कार्ल मार्क्स के सोशलिष्ट खयालात का हूँ, जो इस मुल्क के लिए बिलकुल नई चीज़ हैं ।

दीनानाथ—जानता हूँ ।

शक्तिपाल—और वह भी मोस्ट माडर्न सोशलिस्ट खयालात का जिनके मुताबिक सच्चा सोशलिज्म रिवोल्यूशन से नहीं, पर इवोल्यूशन और पार्लीमेंटरी तरीकों से ही कायम हो सकता है ।

दीनानाथ—यह भी जानता हूँ ।

शक्तिपाल—यह भी तुम जानते हो कि आज कल दुनिया में ये खयालात सब से एडवांस्ड समझे जाते हैं ?

दीनानाथ—हाँ, कुछ लोग ऐसा अवश्य समझते हैं ।


शक्तिपाल—कुछ लोग नहीं, सभी बड़े-बड़े थिंक्स ।

दीनानाथ—अच्छा, आगे बढ़िए ।

शक्तिपाल—तो मेरे खयाल से जिस रास्ते पर तुम ने चलना तय किया है, वह रास्ता सिर्फ वेवकूफी का हो नहीं, दुनिया को गड्ढे में डालने का भी है ।

श्रीनिवास—यद्यपि मैं तुम्हारे सोशलिस्ट विचारों से सहमत नहीं हूँ, किंतु दीनानाथ का पथ ठीक नहीं है, इसको मैं भी पूर्णतया मानता हूँ । व्यक्तिगत स्वाग-त्यार्थ के बिना आनंद से रहते हुए भी मनुष्य देश और जगत् की सेवा कर सकता है ।





अधिकारों को मैं आवश्यक न समझता तो असहयोग-आंदोलन में क्यों सम्मिलित होता ।

शक्तिपाल—नहीं-नहीं, पर तुम्हारा यह खयाल जरूर है कि बिना सियासी इख्तियारात और दौलत के भी आदमी दुनिया की भलाई और गरीबों की खिदमत कर सकता है ।

दीनानाथ—हाँ, और इसी विचार को व्यवहार में लाकर मैं देखना चाहता हूँ कि यह कहाँ तक ठीक है ।

शक्तिपाल—तुम जानते हो मैं कार्ल मार्क्स के सोशलिष्ट खयालात का हूँ, जो इस मुल्क के लिए विलकुल नई चीज हैं ।

दीनानाथ—जानता हूँ ।

शक्तिपाल—और वह भी मोस्ट माडर्न सोशलिस्ट खयालात का जिनके मुताबिक सच्चा सोशलिज्म रिवोल्यूशन से नहीं, पर इवोल्यूशन और पार्लिमेंटरी तरीकों से ही कायम हो सकता है ।

दीनानाथ—यह भी जानता हूँ ।

शक्तिपाल—यह भी तुम जानते हो कि आज कल दुनिया में ये खयालात सब से एडवांस्ड समझे जाते हैं ?

दीनानाथ—हाँ, कुछ लोग ऐसा अवश्य समझते हैं ।

शक्तिपाल—कुछ लोग नहीं, सभी बड़े-बड़े थिंकर्स ।

दीनानाथ—अच्छा, आगे बढ़िए ।

शक्तिपाल—तो मेरे खयाल से जिस रास्ते पर तुम ने चलना तय किया है, वह रास्ता सिर्फ बेवकूफी का हो नहीं, दुनिया को गड्ढे में डालने का भी है ।

श्रीनिवास—यद्यपि मैं तुम्हारे सोशलिस्ट विचारों से सहमत नहीं हूँ, किंतु दीनानाथ का पथ ठीक नहीं है, इसको मैं भी पूर्णतया मानता हूँ । व्यक्तिगत स्वाग-त्यार्थ के बिना आनंद से रहते हुए भी मनुष्य देश और जगत् की सेवा कर सकता है ।



वरन् तमाम दुनिया का मसला है। हमारी कौंसिलों को इख्तियारत हैं या नहीं, यह सवाल ही नहीं उठता। (चाय का प्याला रख कर, फल खाते हुए) इस वक्त तमाम दुनिया में सोशलिज्म कायम करने की कोशिश हो रही है और जब वह दुनिया के मुख्तलिफ़-मुख्तलिफ़ हिस्सों में कायम हो जायगा, तब हमारे यहाँ न हो, यह ग़ैरमुमकिन है।

दीनानाथ—और जब तक यह नहीं हो जाता, तब तक क्या किया जाय-?

शक्तिपाल—इन्हीं कौंसिलों के जरिये जितनी उस तरफ़ को बढ़ने की कोशिश हो सकती है, उतनी करने के सिवा और क्या किया जा सकता है, क्योंकि यह जाती स्वार्थ छोड़ना और इससे गरीबों को सेवा का तुम्हारा रास्ता बिलकुल फ़िजूल है। फिर फ़िजूल है इतना नहीं, जैसा मैंने कहा था दुनिया को गड्ढे में डालने वाला है।

दीनानाथ—यह किस प्रकार ?

शक्तिपाल—तुम इन गरीबों की खिदमत करके इनको उलटा निकम्मा और अलाल बना दोगे और इस तरह इस स्वार्थ छोड़ने से उलटा स्वार्थ पैदा करोगे। ये निकम्मे और अलाल आदमी और ज्यादा स्वार्थी हो जायँगे।

दीनानाथ—ठीक है, संसार में जब तक सोशलिज्म की स्थापना न होगी, तब तक धनवानों को निस्स्वार्थ होने की आवश्यकता नहीं। उनकी लूट तथा अत्याचार उसी प्रकार चलता रह सकता है और जो थोड़ा-बहुत स्वार्थ त्याग कर दीन-दुखियों की सेवा करे, वह तुम्हारे मत में निरर्थक काम है; वरन् संसार को गड्ढे में डालने वाला है। धनवानों की लूट से तब तक संसार को हानि न होगी; पर स्वार्थत्यागियों की सेवा से हानि हो जायगी। चमा करना, भाई, यदि मैं यह कहूँ कि तुम्हारे इस मत से मैं सहमत नहीं हूँ। कम-से-कम जब तक संसार में सोशलिज्म की स्थापना होती है, तब तक तो मुझे अपने स्वार्थ-त्याग

के सेवा-पथ पर चलनेवालों की आवश्यकता जान पड़ती है। जब तक दोन-दुखो हैं, तब तक तो मैं उन्हें प्यार हो करता हूँ, घृणा नहीं कर सकता।

शक्तिपाल—तो अब आप अपने स्वार्थ-त्याग और गरीबों की सेवा से दुनिया को सुखी कर देंगे। त्रेवो ! दोनानाथ, त्रेवो ! थी चियर्स फार मिस्टर दोनानाथ एम० ए० ! हिप हिप हुरे ! ( जोर से हँस पड़ता है; श्रीनिवास भी हँसने में साथ देता है )

श्रीनिवास—( जो चाय पी चुका है और फल खा रहा है ) अरे छोड़ो ये बातें, दोनानाथ, कहाँ की सनक सवार हुई ? मैंने तो अब तक दो विद्वानों के संवाद में बोलना ही उचित नहीं समझा। मेरे मतानुसार तो तुम दोनों ही स्वप्न देख रहे हो। न तो संसार में सारी सम्पत्ति नेशनलाइज़ होकर भिन्न-भिन्न सरकारों का सहयोग हो सब को आय बराबर हो सकती है और न निस्स्वार्थता का साम्राज्य ही हो सकता है। यह जगत् सदा से जैसा रहा है, वैसा ही आज है, और वैसा ही सदा रहेगा। कभी-कभी कुछ सनकी उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ दिन चहल-पहल मचती है और फिर सब जैसा का तैसा। गांधी और लेनिन उन्हीं सनकियों में हैं। धनवान भी रहेंगे और निधन भी। किसी को सुख रहेगा, किसी को दुःख रहेगा। कोई आनन्द में रहेगा कोई कष्ट में।

शक्तिपाल—सोशलिज्म के वाद नहीं।

श्रीनिवास—वह तो देखना है, पर हाँ सहस्रों और लाखों के कष्ट पाने का कोई अर्थ नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के एक ही शरीर है और जितना एक शरीर को कष्ट हो सकता है, उतना ही संसार में है, उससे अधिक नहीं। अब रही धनवानों की बात, सो शक्तिपाल भी संसार में धनवानों को नहीं चाहते और तुम तो चाहते ही नहीं हो। पर तुम दोनों एक बात भूल जाते हो कि जिस दिन संसार में धनवान न रहेंगे, उस

दिन संसार की सारी सभ्यता समाप्त हो जायगी ।

शक्तिपाल—यह क्यों कर ?

श्रीनिवास—सभ्यता वैज्ञानिक आविष्कारों और ललित कलाओं पर निर्भर है । ये दोनों बातें पूँजी पर अवलंबित हैं, और पूँजी धनवानों पर । यदि सब की आय आपस में बँट गई, या दीनानाथ के शब्दों में धनवान लोगों को न लूट सके तो वैज्ञानिक आविष्कारों अथवा ललित कलाओं के लिए पूँजी कहाँ से आएगी ?

शक्तिपाल—तुम्हारी इन दोनों बातों का सोशलिज्म के पास जवाब है ।

श्रीनिवास—उत्तर संसार में किस बात का नहीं होता, पर मैं वाद-विवाद करना ही नहीं चाहता । जब तुम दोनों में बातें चल रही थीं, तब मैं चुपचाप बैठा था । ( सिगरेट जलाते हुए ) मैं तो ( मानिस बुझ जाती है अतः दूसरी जला कर ) मैं तो ( फिर बुझ जाती है, अतः तीसरी जलाकर ) मैं तो दीनानाथ को अपना मत बता रहा हूँ, तुमसे वाद-विवाद नहीं कर रहा हूँ । तुम कहो और दीनानाथ सुने तो अपना मत बता दें, नहीं तो भाई चुप हुआ जाता हूँ ।

शक्तिपाल—अच्छा-अच्छा कहो ।

दीनानाथ—जो कुछ तुम कहोगे, मैं सहर्ष सुनूँगा ।

श्रीनिवास—क्या कह रहा था ? अच्छा सारांश यह है कि मैं भी देश की सेवा करना चाहता हूँ, पर, भाई, मेरा सेवा का पथ धन कमा-कमा कर अच्छे और श्रेष्ठ कार्यों में लगाने के लिए देना है ।

शक्तिपाल—जब तक सोशलिज्म कायम नहीं हो जाता, तब तक यह भी एक बहुत बड़ी खिदमत है ।

श्रीनिवास—सोशलिज्म का राज्य हो ही नहीं सकता ।

शक्तिपाल—यह तो.....

श्रीनिवास—फिर वाद-विवाद आरंभ होगा, अच्छा जाने दो । थोड़े

में मेरा अभिप्राय तो यह है कि अपना पेट भरो, अपने कुटुंब का पालन करो, जो थोड़ा-बहुत समय और धन बचे उससे जितनी दूसरों की भलाई हो सके उतनी कर दो, मेरे मत में तो यही सबसे अच्छा सिद्धांत है। 'आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्' यह हमारे पुराने शास्त्रकारों का भी कथन है।

[ कुछ समय तक कोई कुछ नहीं बोलता ]

श्रीनिवास—( दीनानाथ से ) फिर क्या निर्णय किया ? लिखी जाय एप्लीकेशन प्रोफेसरी के लिए ? कठिनता तो यह है कि शक्तिपाल स्वप्न देखते हैं और तुम स्वप्न देखकर उन्हीं के अनुसार चलते भी हो। शक्तिपाल सब की आय बराबर चाहते हैं, पर जब तक बराबर नहीं हो जाती, अपनी नहीं छोड़ते।

शक्तिपाल—वेशक ( सिगरेट जलाते हुए ) क्योंकि वह तो महज़ बेवकूफो होगी; छोड़ भी दी तो जिसे नहीं मिलनी चाहिए, उसे शायद मिल जाय।

श्रीनिवास—फिर शक्तिपाल के कार्यक्रम में भी उनके स्वप्न के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी एल-एल० बी० पास किया है, अब वैरिस्टरी के लिए विलायत जा रहे हैं, वहाँ से लौटकर प्रैक्टिस करेंगे, फिर कदाचित् अपने सिद्धांतों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए कौंसिल में भी चले जायँ।

शक्तिपाल—ज़रूर जाऊँगा। १९२३ के मिडिल में लौट आऊँगा और १९२३ के इलेक्शन में ही खड़ा होऊँगा। इतना ही क्यों, मिनिस्टर होने की भी कोशिश करूँगा, क्योंकि बिना सियासी इखितयारात के ही क्या सकता है ?

श्रीनिवास—ठीक, और, दीनानाथ, तुम और तुम्हारा कुटुंब दोनों तुम्हारे स्वप्नों के कारण भूखों मर रहे हैं, और मरेंगे।

[ दीनानाथ चुप रहता है। ]

श्रीनिवास—फिर कुछ कहो भी ?

दीनानाथ—मैं तुम दोनों का अनुगृहीत हूँ, पर, भाई, मैं अपने ही टूटे-फूटे सेवा-पथ पर चलूँगा।

[ परदा गिरता है ]

## दूसरा दृश्य

स्थान—श्रीनिवास के मकान का दालान

समय—तीसरा पहर

[ दालान के पीछे दीवाल है। दोनों ओर दो खंभे हैं। कोई दरवाजा या खिड़की नहीं है। सरला और कमला का प्रवेश। दोनों की अवस्था लगभग २३ वर्ष की है। सरला साँवले रंग की पर साधारणतया सुन्दर स्त्री है। कमला गौरवर्ण की रूपवती रमणी है। सरला बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण धारण किये हुए है। कमला के वस्त्र सफेद खादी के हैं, हाथों में काँच की एक-एक चूड़ी के अतिरिक्त शरीर पर और कोई आभूषण नहीं है। ]

कमला—चार वर्ष बीत गये, सरला, इसी प्रकार कष्ट पाते हुए लगभग चार वर्ष बीत गये। जब वी० ए० पास हुए तब विवाह हुआ था। आशा थी एम० ए० पास होने पश्चात् या तो प्रोफेसर हो जायेंगे या एल०-एल० वी० पास कर वकालत। हम लोग भी वगीचे और नौकरों से घिरे-घिराये बँगले में रहेंगे। पढ़े हुए सभ्य मनुष्यों के समान हम लोगों की भी वेश-भूषा और खाना पीना होगा। मोटर में वायु-सेवन होगा और व्यायाम के लिए टेनिस। जब बच्चे होंगे तब उन्हें आया खिलायेंगी और छोटी-छोटी गाड़ियों में घुमाने ले जायेंगी। पाहुनों की आबभगत होगी और मित्रों को प्रीतिभोज दिये जायेंगे। पर भाग्य में तो और ही कुछ बढ़ा था। एम० ए० पास हुए भी तो दो वर्ष होते हैं, पहले तो जेल चले गये और जेल से लौटे भी इतना समय बीत गया, पर अभी भी उन्हें कुटुम्बियों के कष्टों की चिंता नहीं।



सरला—तुम समझती हो, वहन, जो मनुष्य अन्य दीन-दुखियों की इतनी सेवा करता है, उसे अपने कुटुम्बियों को चिंता नहीं है ?

कमला—थोड़ी भी नहीं, उनका तो महात्मा गांधी से भी आगे बढ़ कर यह सिद्धांत है न, कि जब यह देश निर्धन है, यहाँ के अधिकांश जनों को पेटभर भोजन नहीं मिलता, वस्त्र नहीं मिलते, रहने को भोपड़े नहीं है, तब यहाँ के सुदृढ लोगो को दिन में चार बार उत्तमोत्तम भोजन करने, बहुमूल्य वस्त्र पहनने, ऊँचे-ऊँचे महलों एवं बँगलों में रहने, मोटरों में घूमने और नाना प्रकार के विलासों को भोगने का कोई अधिकार नहीं है।

सरला—पर, कमला, मैंने सुना है, उन्हें अपने लेखों, पुस्तकों आदि से आय तो यथेष्ट हो जाती है; उनके लेख इत्यादि तो इसी देश के नहीं पर विदेशों के पत्रों तक में छपते हैं।

कमला—बहुत अधिक तो नहीं होती, क्योंकि गाँव-गाँव घूमते रहने के कारण उन्हें लिखने का समय ही बहुत कम मिलता है। फिर जितनी आय होती है वह भी पूरी वे अपने तथा अपने कुटुम्ब के ऊपर कहाँ व्यय करते हैं ?

सरला—अच्छा !

कमला—कहते हैं, निधनों की रहन-सहन में जितना व्यय होता है, उससे अधिक खर्च करने का हमें क्या अधिकार है ? नितांत आवश्यक व्यय के पश्चात् जो कुछ उन्हें अपनी आय में से बचता है, वह भी अपाहिजों के भोजन, दरिद्र रोगियों की औषध और निर्धन विद्यार्थियों की सहायता आदि में जाता है।

सरला—जब स्वयं की आय का यह लेखा है तब जो धन लोग उन्हें दान में देते हैं, उसकी तो एक कौड़ी भी निज के खर्च में क्यों जाती होगी ?

कमला—राम का नाम लो, सरला, जब कोई भी उन्हें दान

देता है, उसी समय वे पूछ लेते हैं कि यह द्रव्य किस कार्य में व्यय किया जाय, और दाता जिस कार्य में कहते हैं, उसमें तत्काल लगा दिया जाता है।

सरला—तो, कमला, तुम्हारा मत है कि तुम लोग बड़े दुखी हो और जो महलों और वंगलों में रह मोटरों पर वायुसेवन करते एवं अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनते और उत्तमोत्तम भोजन करते हैं, वे बड़े सुखी हैं।

कमला—इस संसार में इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है ? हाँ, मुँह से परोपकार चिल्लाते रहना बुरा नहीं है।

सरला—फिर, वहन, मुझे क्यों क्लेश है ? मैं तो आज उन गृह की स्वामिनी हूँ, जो इस देश के बड़े-से-बड़े श्रीमान् गृहों में से एक है।

कमला—इसका कारण दूसरा है, सरला ! क्षमा करना, यदि श्रीनिवास जी सच्चरित्र होते तो तुम से अधिक सुख और किसे हो सकता था ?

सरला—मुझे सन्देह है कि फिर भी मुझे इस धनवान जीवन में सुख होता या नहीं। फिर कमला, ऐश्वर्य के साथ सच्चरित्रता बहुत कम देखने में आती है। उनके इतने श्रीमान् मित्र हैं, पर सब वैसे के वैसे।

कमला—शिक्षितों में यह बात नहीं होती।

सरला—क्यों ? वे भी तो वी० ए० पास हैं और उनके अनेक दुश्चरित्र श्रीमान् मित्र भी शिक्षित हैं।

कमला—मेरा अभिप्राय उन शिक्षितों से है, जो मध्यम श्रेणी के कहे जाते हैं।

सरला—उनमें प्रायः दूसरा दोष आ जाता है, वह है अधिकार-प्राप्ति का प्रयत्न। शक्तिपाल जी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। विलायत से वैरिस्टर होकर और विवाह करके लौटे-देर नहीं हुई कि कौंसिल में

जाने की सोची। उनके सौभाग्य से चुनाव भी इसी समय आ गया। फिर अकेले खड़े हुए हों, यह भी नहीं, पूरा दल बना कर खड़े हुए। सफलता उन्हें अवश्य मिल गई और वे मिनिस्टर भी हो गये, पर चुन व में जो पर्चेबाजी हुई, झूठ बोला गया, और लांच में रुपया बहा, उससे तुम समझती हो किसी की आत्मा को कभी सुख हो सकता है? फिर वह सब हुआ उस दल के लिए जो अपने को साम्यवादी कहता है। वहन, तुम्हें इस चुनाव का पूरा वृत्तांत ज्ञात नहीं, पर मैं जानती हूँ क्योंकि सारा चुनाव मेरे घर के रुपयों से ही लड़ा गया है।

कमला—मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी मेरा कहन नहीं है।

सरला—तब किसके सम्बन्ध में कहना है ?

कमला—वकील, बैरिस्टर, डाक्टर, अध्यापक, सरकारी कर्मचारी इत्यादि; जिनकी दृष्टि अधिकार-प्राप्ति की ओर भी नहीं रहती।

सरला—उनमें से भी मैं बहुतों का वृत्तांत जानती हूँ, कमला। क्योंकि यहाँ तो सभी का जमघट रहता है। प्रतिद्वंद्विता, जो स्वार्थ की पत्नी, और दुःख, जो इन दोनों का पुत्र है, उस का इन पर भी पूर्ण राज्य है। आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण इनसे सुख भी कोसों दूर भागते हैं। मैं तो समझती हूँ, वहन, कि ईश्वर ने जैसा पति तुम्हें दिया है, और उसके साथ जिस प्रकार तुम्हारा जीवन बीत रहा है, उससे तुम्हें सच्चा सुख मिलना चाहिये।

कमला—ठीक है, वहन, जीभ हिलाने में क्या लगता है ? तुम यदि मेरे स्थान पर होती, इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करना पड़ता, तो तुम्हें ज्ञात होता। फिर जब तक बच्चे नहीं हुए थे, तब तक तो कष्ट मुझ ही तक था। जब मैं किसी वकील, डाक्टर, प्रोफेसर या सरकारी कर्मचारी को लो को अच्छे-अच्छे वस्त्र पहने देखती, जब उनके यहाँ के किसी प्रीतिभोज आदि का वृत्तांत सुनती, तब मैं ही अपना हृदय मसोस कर

ह जाती थी। किसी विवाह आदि व्यावहारिक कार्य में भी मैंने जना झेड़ दिया था, क्योंकि एक तो दूसरे सवारियों पर बैठ कर आते और मेरे पैदल जाना पड़ता। और जब सब के बीच में बैठती, तब अपना शमूपा देख कर मुझे ही लज्जा आती थी; फिर भी उस समय इतना तेश नहीं था, जितना बच्चे होने के पश्चात् हो गया है। अब जब कभी वह तीन वर्ष का बच्चा और डेढ़ वर्ष की बच्ची दूसरे बच्चों को मिठाई देख कर रोते हैं, मोटर का विगुल सुन कर 'मोटर-मोटर' चिल्लाते हैं, तब मुझे जो कष्ट होता है, वह मैं ही जानती हूँ। सरला, तुम्हारे यदि बच्चे होते और तुम्हें भी उन्हें लेकर मेरी उस सेवाकुटी के समान दूटा मोपड़ी में रहना पड़ता और वे बच्चे भी मेरे बच्चों के समान चिल्लाते तो तुम्हें ज्ञात होता कि माता का हृदय बच्चों के कष्टों से किस प्रकार व्यथित होता है। फिर जिसे ये सुख प्राप्त होना संभव नहीं है, उनकी दूसरी बात है, उन्हें उस स्थिति में भी सन्तोष हो जाता है, पर जब मैं यह सोचती हूँ कि मेरे बच्चों को ये सब सुख उनके पिता के कारण ही प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तब मेरे हृदय पर जैसा साँप लोटता है, उसे तुम कैसे अनुभव कर सकती हो, वहन। ( आँसू टपकते हैं )

सरला—( जल्दी से ) मैंने भूल, भारी भूल की, कमला ! मैं देखती हूँ, मैंने तुमको दुःख पहुँचाया है। ( हाथ जोड़ती हुई ) क्षमा करो, वहन, सच है, मैं तुम्हारे कष्टों का अनुभव नहीं कर सकती।

कमला—( आँसू पोंछते हुए लंबी साँस लेकर ) नहीं वहन, तुम मुझे क्या दुःख पहुँचाओगी। मेरा भाग्य ही ऐसा है। ( कुछ ठहर कर ) अच्छा, सरला, अब भोजन बनाने का समय हुआ, चलती हूँ।

सरला—फिर कब आओगी ?

कमला—( जाते हुए ) कभी भी आ जाऊँगी।

[ एक ओर कमला का और दूसरी ओर सरला का प्रस्थान ]

[ परदा उठता है ]

## तीसरा दृश्य

स्थान—शक्तिपाल वर्मा के बँगले का एक कमरा ।

समय—रात्रि ।

[ कमरा अँगरेजी ढंग से सजा है । तीन ओर दीवालें हैं । दीवालों पर रंगीन फूलदार कागज चिपका हुआ है । छत ( सीलिंग ) उसी प्रकार के रंग से रंगी है । पीछे और दोनों ओर की दीवालों में कई दरवाजे और खिड़कियाँ हैं, जिन के क्रिवाड़ों में काँच लगे हैं । अनेक दरवाजे और खिड़कियाँ खुली हुई हैं जिनसे बाहर के उद्यान का कुछ भाग दिखाई देता है, जिसे चाँदनी का प्रकाश आलोकित किये है । कमरे के प्रवेश पर विलायती गलीचा है । दीवालों पर इंगलैंड के दृश्यों के तैलचित्र ( ऑयल पेंटिंग ) लगे हैं । छत से चारों ओरों में चार बिजली की बत्तियाँ झूल रही हैं, जो रेशमी कपड़े के शेड से ढकी हुई हैं । बीच में सफेद रंग का बिजली का पंखा है । गद्दीदार सोफ़ा, आरामकुरसी और कुरसियाँ तथा टेबलें सजी हुई हैं । टेबलों पर फूलों और पत्तियों से भरे हुए फूलदान, हाथीदाँत, लकड़ी एवं पीतल के खिलौने, सीप तथा सफेद और काले पत्थर के छोटे-छोटे बक्स आदि ( क्यूरियो ) और चाँदी के क्रोमों में लड़ी हुई कई मेमों और बच्चों की तस्वीरें सजाई गई हैं । एक ओर लिखने की ( राइटिंग ) टेबल है, जिस पर लिखने का सामान और बिजली का टेबल लैंप रक्खा है । इस टेबल के सामने दफ्तर की कुरसी ( आफिस चेयर ) है । दूसरी तरफ पियानो है और पियानो के सामने मूढ़ा ( पियानो स्टूल ) । दीवाल के बीचोंबीच घड़ी लगी हुई है, जिसमें सात बजकर पैंतीस मिनट हुए हैं । सोफ़ा पर मिसेज़ मार्गरेट वर्मा बैठी है । मार्गरेट की अवस्था लगभग २२ वर्ष की है । वह अत्यंत सुंदर अँगरेज़-महिला है । चाकलेट रंग का रेशमी छोटा-सा लहंगा ( स्कर्ट ) और नीले रंग का शलूका ( ब्लाउज़ ) पहने है । पैरों में जाँघों तक शरीर के रंग से मिलते हुए रेशमी मोजे ( स्टॉकिंग्स ) हैं और पैरों में जैँची एड़ी के शरवती रंग के जूते । सिर खुला है । बाल सुनहरे हैं, जो कटे हुए ( बॉव्ड ) हैं । ]

मार्गरेट—( बाई कलाई की घड़ी पर दृष्टि रखते उसी हाथ से दाहिने हाथ

की नब्ज देखते हुए) सैवंटी सिक्स । (खड़े होकर फिर उसी प्रकार घड़ी और नब्ज को देख कर) एट्टी । (सोफा पर लेट उसी प्रकार घड़ी और नब्ज देख कर) सैवंटी टू । (लिखने की टेबल पर जा नोटबुक में कुछ लिखती है, फिर टेबल की दराज खोल उसमें से दो थरमामीटर (बुखार नापने का यंत्र) निकाल कर सोफा पर आ थरमामीटर घरों (केस) में से निकाल एक मुँह में और दूसरा कपड़ों के नीचे बगल में लगाती है । कुछ देर घड़ी देखने के पश्चात् मुँह का थरमामीटर निकाल और देखकर) नाइंटीएट पाइंट टू ! (उस थरमामीटर को घर में रख बगल के थरमामीटर को निकाल और देखकर) नाइंटीसेवन पाइंट एट ।

( अँगरेजी कपड़ों में शक्तिपाल का प्रवेश )

शक्तिपाल—हलो, डार्लिंग, फिर थरमामीटर ! दिन भर तुम थरमामीटर लगाती और पल्स देखती हो !

मार्गरेट—इस कंट्री का क्लाइमेट इतना हाट कि हमेशा फीवर का डाउट रेटा, डियर । हर थंड आवर पर हमको टेंप्रेचर लेनाई परटा और पल्स भी काउंट करनाई परटा । जब कवी टेंप्रेचर नाइंटी एट पाइंट फोर के ऊपर या पल्स एट्टी के ऊपर जाता टवी सब काम बंड कर वेड में कनफाइन होनाई परटा । ( थरमामीटर केस में रखती है । )

शक्तिपाल—( उसी सोफे पर बैठते हुए ) पर, माई डियर, इस तरह के शक-ही-शक में तुम बीमार हो जाओगे ।

मार्गरेट—नेई नेई, कोई डुनिया में इस टरा बीमार नेई हो सकटा-ये तो हेल्थ का हिफाजट रखने का क्वेश्चन । आच्चा, डियर, अब हिंडो-स्टानी बोल लेटा, कि नेई ?

शक्तिपाल—हाँ, हाँ तुम इतनी हिन्दुस्तानी बोलने और समझने लगी कि काम चल जाता है ।

मार्गरेट—पर अभी टुम जितना इङ्गलिश बोल सकटा और समझ सकटा उतना हम हिंडोस्तानी नेई ।

शक्तिपाल—मुझे इङ्गलिश सीखते आज क्रिस्टीन इयर्स के करीब हो गये, डार्लिंग । (जेब में से सिगरेटकेस निकाल मार्गरेट की ओर करता है । मार्गरेट एक उठा लेती है । ) उतनी हिन्दुस्तानी तुम एक साल में क्योंकर सोख सकती हो ? यह तो हिन्दुस्तानी पढ़ने के साथ ही तुमने मेरे साथ भी हिन्दुस्तानी में ही बोलने का डिंसोर्यून किया है, नहीं तो इतनी जल्दी इतनी भी नहीं आती ।

मार्गरेट—नेई डियर, इसका एक रीजन और हो सकता । इस कंट्री में आ के हम को ये भी मालूम हुआ कि हिंडोस्तानी लोग अंग्रेजों का जितना नकल कर सकता, उतना हम लोग नेई कर सकता । (शक्तिपाल माचिस से उसका सिगरेट जलाता है । कुछ ठहर कर ) आच्चा, दुमारा पालिटिक्स दो अब खटम हो गया, दुम मिनिस्टर भी हो गया, अब इस कंट्री का सैर कराने हम को कव ले चलटा ? इंडिया सनशाइन और स्पॉट्स का लैंड कहा जाता, यहाँ का हिस्टारिकल ल्पेसेज और हिल स्टेशनस भी वोट मशहूर ।

शक्तिपाल—प्रेजुअल्लों सब जगह चलेंगे डियर, जरा मेरे पोर्टफोलियो के जितने डिपाटमेंट हैं, उनको अच्छी तरह से समझ लूँ, (अपना सिगरेट जलाते हुए) थोड़ा .. (माचिस बुझ जाती है अतः दूसरी जलाकर) थोड़ा ठोक भी कर दूँ, जिन्हें ओवरहाल करने की जरूरत है, इन्हें ओवरहाल कर लूँ ।

मार्गरेट—(अधीर होकर) ये दो वोट काम हो गया । मालूम होटा दुमको पालिटिक्स से कवी टाइम नेई मिलेगा !

शक्तिपाल—नहीं, नहीं, टाइम क्यों नहीं मिलेगा ! पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उसे सोशलिज्म .....

[लाल वर्दी पहने हुए चपरासी का प्रवेश । चपरासी के हाथ में चाँदों की रफावी में एक कार्ड है । वह सलाम कर रफावी आगे करता है । शक्तिपाल कार्ड उठा, चश्मा उतार कार्ड पढ़ता है । फिर चश्मा लगा लेता है ।]

शक्तिपाल—मिस्टर श्रीनिवास, अच्छा सलाम दो ।

( चपरासी का सलाम कर प्रस्थान )

शक्तिपाल—( जोर से ) देखो, चपरासी ! चपरासी !

मार्गरेट—( जल्दी से शक्तिपाल के मुँह पर हाथ लगाते हुए ) ओ !  
डॉट मेक नायज़ लाइक दिस, माइ डियर ! इट एकटस आन माई  
नर्ज़ ! वेल क्यों नेई ठोका ?

[ चपरासी का प्रवेश । वह सलाम करता है । ]

शक्तिपाल—हाँ, हाँ, अच्छा, बहुत खातिर से उन्हें भेजना !

चपरासी—बहुत खूब सरकार ! ( सलाम करके जाता है )

मार्गरेट—यू मस्ट लर्न मैनुअर्स ऐंड एटिकेट, डियर ! हमटो हिंडो-  
स्तानी सीख गिया, पर इतना कोशिश करने पर वो दुमने अब टक  
मैनुअर्स और एटिकेट नेई सोखा । नांकर को कवी मट पुकारो, वेल ठोको ।  
खाने का टाइम पर छुरी-काँटा इस टरा यूज़ करो कि वर्टन में उससे  
शोर नेई हो; खाने मे मुँह से ( चप-चप करते हुए ) इस तरह गुलगपाड़ा  
मट करा । वाइक के रूम में भी वगैर इटला मट जाओ । इडर-उडर...

[ श्रीनिवास का अंगरेजी कपड़ों में प्रवेश ]

श्रीनिवास—( टोप उतारते हुए ) गुड इवनिंग मिसेज़ वर्मा, गुड  
इवनिंग मिस्टर वर्मा ।

मार्गरेट—( उठते हुए ) गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मिस्टर शीनिवैश !

शक्तिपाल—( उठते हुए ) गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ।

श्रीनिवास—( निकट पहुँच मार्गरेट से हाथ मिलाते हुए ) हाउ डू यू डू ?

मार्गरेट—हाउ डू यू डू ?

शक्तिपाल—( श्रीनिवास से हाथ मिलाते हुए ) हाउ डू यू डू ?

श्रीनिवास—हाउ डू यू डू ?

मार्गरेट—टेक योर सीट मिस्टर शीनिवैश ।

श्रीनिवास—थैंक्यू, थैंक्यू ।

[ सब लोग बैठते हैं ]



मार्गरेट—( फिर उठते हुए ) एस्क्यूज मी, हम अभी ज़रा डाइनिंग-रूम देखकर आटा ।

श्रीनिवास—अब तो आप अच्छी हिन्दुस्तानी बोलने लगीं ।

मागरेट—(मुसकराकर) कोशिश करता ।

[ श्रीनिवास खड़ा हो जाता है । मार्गरेट जाती है । वह बैठ जाता है । ]

श्रीनिवास—(जेब से एक अखबार का अंक निकाल शक्तिपाल को देते हुए) रेड पेंसिल से माकड़े पोशन देखो, शक्तिपाल, इस लेख में बोटरों को धमकियाँ और लांघ देने का मुझ पर आक्षेप कर कैसी गालियाँ दी गई हैं ।

[ शक्तिपाल अखबार ले चश्मा उतार कर पढ़ता है ]

शक्तिपाल—( पढ़ने के पश्चात् फिर चश्मा लगाते हुए ) हाँ, गालियाँ तो ज़रूर दी गई हैं, पर, भाई आर्टिकल बड़ी अच्छी तरह लिखा गया है । कितनी सचाई टपकती है ? क्या सचमुच इलेक्शन में यह सब कुछ हुआ है ? ( सिगरेट निकाल आगे करता है । )

श्रीनिवास—(सिगरेट उठाते हुए) किस चुनाव में यह सब नहीं होता ?

शक्तिपाल—पर तुमने मुझसे तो कभी इसकी वाबत बातचीत नहीं की; इलेक्शन के वक्त तक नहीं कहा ।

श्रीनिवास—आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं समझता था कि तुमको यह सब ज्ञात है, और फिर चुनाव का सारा कार्य तुमने मुझ पर छोड़ दिया था ।

शक्तिपाल—पर, भाई, यह सब तो सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स के खिलाफ.....

श्रीनिवास—सोशलिज्म का स्वप्न देखते-देखते अब क्या तुम भी उस के अनुसार चलना चाहते हो ? ( घृणा से हँसकर ) अजी साहब, यह सब न किया जाता तो आप तथा आपका सारा साम्यवादी दल हार जाता और आप मिनिस्टर भी न हो पाते ।

शक्तिपाल—( लंबी ) इससे तो हार ज्यादा अ

श्रीनिवास—लीजिए अब तो आपस में ही जूती चलने लगी। भाई, मेरा तो चुनाव में केवल कौंसिल में जाने का स्वार्थ था (सिगरेट जलाते हुए)। वह मैं जमींदारों की ओर से किसी प्रकार भी चला जाता। मैंने तो इतना परिश्रम और व्यय केवल तुम्हारे और तुम्हारे दल के लिए किया। अब ऊपर से तुम्हीं .....

शक्तिपाल—खरै जाने दो, हुआ सो हुआ, अब यह कहो कि यह आर्टिकल किसका लिखा हो सकता है ?

श्रीनिवास—यह कहना यद्यपि कठिन था, पर जिस एक बात के आज कई दिन, वरन् महीनों से समाचार मिल रहे हैं, उससे लेखक का नाम अनुमान क्या, निश्चय किया जा सकता है।

शक्तिपाल—कैसे ?

श्रीनिवास—यह तो तुम जानते ही हो कि दीनानाथ यहाँ का महात्मा गाँधी हो गया है। उसकी भोपड़ी सेवाकुटी में जमींदार, सेठ साहूकार, किसान-मजदूर, औरतें-बच्चे हर प्रकार के जीव पहुँचते हैं, क्योंकि इस मनुष्य-समाज को तो कोई नई वस्तु चाहिए। जहाँ देखा कि एक एम० ए० पास आदमी भोपड़ी में साधुओं के सदृश रहता है कि लट्टू हो गया।

शक्तिपाल—हाँ, हाँ, विलायत से लौटने पर तुमने दीनानाथ का सब हाल बताया था और उसकी बहुत तारीफ़ भी की थी, मैं भी उस से मिला था।

श्रीनिवास—उस प्रशंसा की बात तो पीछे बताऊँगा, अभी इस लेख से सम्बन्ध रखने वाली बातें सुनो।

शक्तिपाल—अच्छा, अच्छा।

श्रीनिवास—उसके पास जाने वालों में वह शिवदत्त जमींदार भी है, जो मेरे विरुद्ध कौंसिल के लिए खड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, वह उसके बड़े भारी भक्तों में से एक है।

शक्तिपाल—अच्छा !

श्रीनिवास—शिवदत्त को इस हार से बड़ी चोट पहुँची है; अतः मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि यह लेख शिवदत्त ने दीनानाथ से लिखाया है ।

शक्तिपाल—यह तुम कैसे कह सकते हो ?

श्रीनिवास—दीनानाथ के अतिरिक्त और कोई यहाँ ऐसा अच्छा लिख नहीं सकता ।

शक्तिपाल—हो सकता है, पर तुम समझते हो वह ऐसे भगड़ों में पड़ेगा ?

श्रीनिवास—अरे जाने दो इसे । मैंने जब तुम्हारे सामने उसकी प्रशंसा की थी, उस समय उसके चरित्र का दूसरा पहलू मुझे मालूम नहीं था । ऊपर से बड़ा सोंधा दीखता है, बड़ी सादी रहन-सहन है, बड़ा धर्मात्मा और सिद्धान्तवादी बनता है, पर भीतर उसके विष भरा है. विष ! उस सेवाकुटी में जो-जो कर्म होते हैं, वे भी अब मैंने मुन लिये हैं ।

शक्तिपाल—( आश्चर्य से ) कैसे श्रीनिवास ?

श्रीनिवास—ऐसा कौन-सा दुष्कर्म है जो वहाँ न होता हो । व्यभिचार की वह भूमि है तथा जुए और मदिरा की वेदी ।

शक्तिपाल—( और भी आश्चर्य से ) अच्छा ! यह सब तुम्हारा शक ही है वा इन बातों के सबूत भी हैं ?

श्रीनिवास—एक नहीं, बीस प्रमाण हैं । और वे सब चुनाव में मिले । तुम स्वयं जानते हो और जैसा तुमने अभी कहा भी, कि पहले मैंने तुमसे उसकी कितनी प्रशंसा की थी ।

शक्तिपाल—जरूर ।

श्रीनिवास—पर इस चुनाव में हर प्रकार के लोगों से मिलने का काम पड़ने के कारण महात्मा जी की कलाई खुल गई ।

शक्तिपाल—कैसे ?

श्रीनिवास—उसका प्रभाव बहुत लोगों पर होने के कारण मैं उससे अपने दल को चुनाव में सहायता करने को कहा। मुझ से तो उसने कहा कि मैं इस भगड़े में नहीं पड़ना चाहता, पर पंछे से मालूम हुआ कि उसने छिपे-छिपे शिवदत्त की सहायता की थी और इस के लिए वोटों को उसकी कुटी में मंदिरा पिलाई गई थी तथा लांच वाँटी गई थी।

शक्तिपाल—( आश्चर्य से ) ताज्जुब की बात है।

श्रीनिवास—अब जब शिवदत्त चुनाव में हार गया तो मेरे विरुद्ध यह लेख निकाला। हम लोगों का यह मित्र था; विश्वासघाती कहीं का। देखो, शक्तिपाल, अब इस महात्माइज्म का जब तक यहाँ से अंत नहीं किया जायगा, तब तक नित्य-प्रति इसी प्रकार के भगड़े होंगे। दीनानाथ की सारी धूर्तता को समाज के सम्मुख प्रकट करना पड़ेगा। तभी वह यहाँ से निकलेगा।

शक्तिपाल—पर उसके खिलाफ अगर कुछ कहा जायगा तो लोग उस पर यक़ोन करेंगे ?

श्रीनिवास—तुम कहाँ की बातें करते हो ? यदि किसी की भूठी निन्दा भी फैला दी जाय तो लोग मान जाते हैं।

शक्तिपाल—आखिर तुम कैसे फैलाओगे ?

श्रीनिवास—मैंने उसे निर्धनों को भोजन और औषध वाँटने के लिए कभी-कभी कुछ रुपया दिया है। उसने मुझे कभी खर्च का लेखा नहीं दिया; 'रेडीशन आफ अकाउंट' लेखा न समझाने का उस पर मैं मुक़दमा चलाता हूँ। यदि मुक़दमे में हार भी गया तो दीनानाथ की ताँ अकीर्ति हो जायगी, क्योंकि वह निर्धन है और सभी मान लेंगे कि धन की आवश्यकता होने के कारण उसने अवश्य रुपया खाया होगा। (जोर से धुआँ खींच कर छोड़ते हुए) जहाँ इसके लिए उसकी अकीर्ति हुई,

श्रीनिवास—अच्छा ।

शक्तिपाल—साढ़े सोलह करोड़ में से अगर हम बच्ची, बूढ़ी और जिनकी शादी हो चुकी है, या जो विधवाएँ हैं, उन्हें निकाल दें; तब तो यह फ़िगर छोटा हो ही जाता है ।

श्रीनिवास—अवश्य ।

शक्तिपाल—पर इसे ज़रा दूसरी तरह से देखो । हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार जात हैं, और एक-एक जात में न-जाने कितनी और हैं, फिर उनमें भी फिरके हैं ।

श्रीनिवास—यह भी है ।

शक्तिपाल—मैं कायस्थ हूँ, पर कायस्थों में भी मैं सब के यहाँ शादी नहीं कर सकता । मेरी शादी मेरे फिरके ही में हो सकती थी ।

श्रीनिवास—बराबर ।

शक्तिपाल—इस तरह मैंने बहुत देर तक हिसाब-किताब लगाने के बाद देखा तो मालूम हुआ कि अगर मैं हिंदुस्तान में शादी करना चाहूँ, और फ़ादर की मरज़ी के मुताबिक, तो मुझे साढ़े सोलह करोड़ में से नहीं, पर सिर्फ़ दो औरतों में से चुनाव करना पड़ेगा ।

[ सब हँस पड़ते हैं ]

श्रीनिवास—फिर उन दो का भी ( मार्गरेट की ओर संकेत कर ) इनसे क्या मिलान हो सकता था ? मेरी औरत पढ़ी लिखी है, पर मैं ही जानता हूँ ।

शक्तिपाल—अरे इन से कैपैरिजन ! हिंदुस्तान की औरतों में यह व्यूटी, यह इंटलेक्ट, यह ऐज्युकेशन, यह एटीकेट, यह रिफ़ाइनमेंट,...

मार्गरेट—( मुसकराते हुए ) ओ ! एस्म्यूज़ मी, माइ डियर, हमारा टो शायड यहाँ बैठना मुश्किल हो जायगा । ( नेपथ्य से घंटी बजती है ) चलो चलो, दिनर का घंटा बजटा ।

[ तीनों मुसकराते हुए उठते हैं । परदा गिरता है । ]

## चौथा दृश्य

स्थान—दीनानाथ की सेवा-कुटी के बाहर का मैदान ।

समय—तीसरा पहर ।

[ दूर पर खपरों से छाई हुई एक छोटी-सी कुटी दीखती है । एक ओर से खादी के वस्त्र पहने हुए दो युवकों और दूसरी ओर से एक बच्चे को गोद में लिये तथा दूसरे की उंगली पकड़े कमला का प्रवेश । उसके बच्चे भी खादी के वस्त्र पहने हैं । ]

कमला—( युवकों से ) मुक़दमे का फैसला हो गया ?

एक युवक—फैसला तो अभी नहीं हुआ, माता जी, पर फैसला किस पक्ष में होगा, इसका आभास जान पड़ने लगा है ।

कमला—किस पक्ष में होगा ?

वही युवक—हम लोग ही जीतेंगे ।

दूसरा युवक—जीत तो हम जायँगे, पर हमारी अकीर्ति चहुत हुई ।

पहला—इसमें सन्देह नहीं ।

दूसरा युवक—यह ज़नता बड़ी अद्भुत है । हमारी निर्धनता के कारण हम रुपये खा गये, इस भूठ बात पर विश्वास हो गया; पर हमारी इतनी सेवाओं, इतने त्याग का किसी ने....

कमला—कितनी बार कहूँ, अरे, यह सब त्याग और सेवा निरर्थक है । पर अब भी आपके नेता महोदय के नेत्र खुलें, तब है ।

[ नेपथ्य में गेटर का त्रिशूल बजता है । ]

खड़ा हुआ बच्चा—मोतल, मोतल, मोतल, मोतल ।

एक युवक—( बच्चे को गोद में उठा कर ) चलो, हम तुम्हें मोतल में बैठायेंगे ।

कमला—कहीं वे आ जायँगे तो भुनभुनाने लगेंगे, रहने दो ।

वही युवक—नहीं, माता जी, अभी उनके आने में विलंब है । टैक्सी

लारी है, निकट ही स्टैंड है। अभी बैठकर ले आता हूँ। वच्चे का जी वहल जायगा।

बच्चा—हाँ हाँ, अम्मा, मैं जलूल बैठूँगा। जलूल बैठूँगा।

कमला—( आसूँ भर कर ) बेटा, तुम्हारे वाप चाहें तो किराये की लारी क्या, घर को मोटर हो सकती है, पर तुम्हारे भाग्य में तो ..... ( गला भर आता है। )

[ वह युवक बच्चे को गोद में उठा कर ले जाता है। ]

दूसरा युवक—( जेब से रुमाल निकाल, उसमें बंधा हुआ मिठाई का दोना खोलते हुए ) आ, बच्ची आ, देख कैसे गुलाब-जामुन हैं।

कमला - तुमने नित्य-प्रति बच्चों को मिठाई खिला-खिलाकर आपत्ति कर डाली है। जब इन्हें मिठाई नहीं मिलती, तभी चिल्लाते हैं। वे मुझ पर मुनमुनाते हैं, कहते हैं चोरी से बच्चों को मिठाई खिलाई जाती होगी, नहीं तो बच्चे मिठाई क्या जानें !

[ वह युवक बच्ची को गोद में ले गुलाबजामुन खिलाता है। ]

दीनानाथ का प्रवेश। युवक मिठाई का दोना छिपाना चाहता है, पर दीनानाथ उसे देख लेता है। ]

दीनानाथ—कमला.. मुकदमे में मैं विजयी हो गया, पर इस जनता का सच्चा स्वरूप मुझे दिख गया।

कमला—मैं तो पहले ही कहती थी।

दीनानाथ—तुम्हारा कहना ही सत्य निकला। मेरी सारी सेवाएँ और त्याग एक ओर और वह भूठा अपवाद एक ओर; पर अपवाद का ही पलड़ा भारी रहा।

कमला—रहने ही वाला था।

दीनानाथ—मेरी जीत होने पर भी अनेक मनुष्य ऐसा कहते सुने गये कि मुकदमे में श्रीनिवास हार गया तो क्या हुआ, ऐसी बातों को प्रमाणित करना बड़ा कठिन होता है, पर दीनानाथ ने रुपया अवश्य

खाया होगा; और इतना क्या, न-जाने कितना और खाया होगा ।

कमला—आप ही देख लीजिए !

दीनानाथ—मैं और सार्वजनिक रुपया खाऊँ ! ( लंबी साँस लेकर )  
क्या कहूँ ? यदि रुपयों की ही इतनी चाह होती तो, सेवा का यह पथ ही  
क्यों ग्रहण करता ?

कमला—यह पथ, ही ठीक नहीं है ।

दीनानाथ—मानता हूँ । मैं भी पढ़ा-लिखा हूँ, बहुत कुछ कमा सकता  
था । आज भी थोड़ा-बहुत समय बचाकर जो कमाता हूँ, वह भी पूरा  
अपने पर, तुम पर, या इन बच्चों पर खर्च नहीं करता ।

कमला—इसी का तो यह फल है ।

दीनानाथ—( फिर लंबी साँस लेकर ) कमला, मेरा हृदय टूक-टूक हो  
गया है । सचमुच संसार में सत्य का कोई मूल्य नहीं ( बच्ची को गोद में  
उठाकर ) बच्ची, गुलाबजामुन खाती थी ? खा बेटी, खा ( युवक से दोना  
माँगते हुए ) लाओ मुझे दो, मैं इसे अपने हाथ से मिठाई खिलाऊँगा,  
अच्छे-अच्छे कपड़े पहनाऊँगा ।

[ बच्चे का दौड़ते हुए प्रवेश । ]

बच्चा—अम्मा हम थूब मोतल में बैठे, थूब मोतल में बैठे ।

दीनानाथ—बेटा, तुम्हें मोटर भी ले दूँगा । लो, तुम भी मिठाई  
खाओ । ( दोनों बच्चों को मिठाई खिलाते हुए कमला से ) कमला, मैं आज  
ही प्रोफेसरी के लिए प्रार्थनापत्र भेजता हूँ ।

कमला—( गदगद कंठ से ) धन्य ! धन्य भाग मेरे ! और धन्य इन  
बच्चों के !

[ यवनिका पतन ]



## दूसरा अंक

### पहला दृश्य

स्थान—सेवाकुटी के बाहर का मैदान

समय—संध्या ।

[ दीनानाथ और कमला खड़े हैं ]

कमला—प्रोफेसरी के लिए स्वार्थ प्रार्थनापत्र भेजने पर, उसके स्वीकृत हो जाने और प्रोफेसरी मिलने पर भी अब आप प्रोफेसरी न करेंगे ? युनिवर्सिटी वाले क्या कहेंगे ?

दीनानाथ—मैं उन्हें स्पष्ट लिख दूँगा कि क्षणिक निर्वलता के आवेश में आकर मैंने वह प्रार्थनापत्र भेजा था ।

कमला—( आश्चर्य से ) निर्वलता के आवेश में आकर ?

दीनानाथ—अवश्य ।

कमला—कैसी निर्वलता ?

दीनानाथ—वही स्वार्थ की ।

कमला—आपके स्वार्थ की व्याख्या ही समझना कठिन है ।

दीनानाथ—नहीं, कमला, बहुत ही सरल है ।

कमला—कैसे ?

दीनानाथ—देखो, स्वार्थ का मूलोच्छेदन केवल विषयभोगों के त्याग से ही नहीं होता ।

कमला—तो फिर विषयभोग का त्याग निरर्थक है । आपने व्यर्थ ही इतना कष्ट पाया और पा रहे हैं ?

दीनानाथ—नहीं, उनका त्याग तो आवश्यक है । बिना उनके त्याग के तो स्वार्थत्याग के पथ पर पैर रखना ही असम्भव है । जिस प्रकार लंबी-से-लंबी यात्रा के लिए भी पहले कदम की आवश्यकता है, उसी प्रकार मेरे स्वार्थत्याग के पथ की यात्रा के लिए विषयभोगों का त्याग पहला कदम, पहली सीढ़ी है । विषयभोग के त्याग और अपने सिद्धांत

की अटलता में विश्वास होने पर अपने पथ पर चलने की आत्मशक्ति अवश्य प्राप्त हो जाती है; परंतु उसे स्वार्थ के आक्रमणों से बचाने का फिर भी सदा प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अच्छे-से-अच्छा धुड़-सवार बुरी-से-बुरी तरह गिरता भी है। मेरे पथ का पथिक भी बिना गिरे अपने निदिष्ट स्थान को नहीं पहुँच सकता। कीर्ति सुनने की लालसा और बुराई-सुनने से क्रोध एवं शोक, ये दोनों भी तो स्वार्थ से उत्पन्ने होते हैं। इस घाटी को लाँघने और यदि इसके लाँघने में पतन हो तो उस पतन के पश्चात् और दृढ़ता से उठकर चलने की आवश्यकता है।

कमला—आप न-जाने इस संसार को किस दृष्टि से देखते हैं। प्राचीन काल के बड़े-बड़े त्यागी ऋषि-मुनियों और राजर्षि नरेशों तथा इस समय के बड़े-बड़े नेताओं, सभी को अपनी कीर्ति सुनने की अभिलाषा रही है, और है; किसी को अपनी बुराई अच्छी नहीं लगी, और न लगती है।

दीनानाथ—जिन्हें भी यह लालसा रही है, या है, समझ लो, वे अपने हृदय से स्वार्थ का मूलोच्छेदन नहीं कर सके; और यही कारण उनके पथभ्रष्ट होने का है। कीर्ति-श्रवण की लालसा का स्वार्थ तो, कमला, विषयभोग के स्वार्थ से भी बड़ा है। कई व्यक्ति इसी लिए प्रत्यक्ष में विषयभोग का त्याग कर देते हैं कि उनकी कीर्ति होगी। भीतर-ही-भीतर वे इन विषयों को भी पूर्ण रूप से नहीं त्यागते। छिपे-छिपे वे उनका उपभोग करते हैं। छिपकर जो कार्य किया जाता है, वही पाप है। पाप का यह घड़ा जहाँ फूटा कि ऐसे व्यक्ति पथभ्रष्ट हुए और वह प्रायः फूटता ही है।

कमला—और जो लोग सचमुच विषयभोग त्याग देते हैं, जैसे आपने त्याग दिये हैं ?

दीनानाथ—उनके हृदय में भी कीर्ति-श्रवण का स्वार्थ बना रहता है। सर्वसाधारण से ऊँचे उठने का जो उद्योग करता है, उस पर सर्व-

साधारण की दृष्टि लगी रहती है। कोई किसी को, जहाँ तक उस से हो सकता है, अपने से ऊपर नहीं उठने देना चाहता, अतः ऐसे मनुष्यों का सदा छिद्रान्वेषण होता है। कुछ स्वार्थी कभी-कभी इन के विरुद्ध मिथ्या अपवाद भी फैला देते हैं। चूँकि आज संसार में वुराइयों से युक्त ही अधिक मनुष्य हैं, अतः इस प्रकार के मिथ्या अपवादों पर सर्व-साधारण को शीघ्र ही विश्वास हो जाता है। जिन में अपनी कीर्ति सुनने का स्वार्थ विद्यमान है, ऐसे विषयभोगों को भी सचमुच त्याग देने वाले व्यक्ति अपनी अकीर्ति श्रवण न कर सकने के कारण पथभ्रष्ट हो जाते हैं। यह स्वार्थ है, कमला स्वार्थ! इसी स्वार्थ के वशीभूत होकर उस दिन मैंने प्रोफेसरी के लिए प्रार्थनापत्र भेजा था।

कमला—फिर अब आप क्या करेंगे ?

दीनानाथ—वही, जो अब तक करता था। अंतर केवल इतना ही होगा कि बिना इस बात की चिंता किये कि कोई मेरी वुराई करता है या भलाई, वही काम कहूँगा। जो मेरी अकीर्ति हुई है, उसे मैं एक प्रकार की परीक्षा मानता हूँ कमला, यह भी मेरे पथ की एक सीढ़ी थी। हृदय में निर्बलता अवश्य आई, पर विवेक ने...

कमला—मैं क्या कहूँ, आपके स्वार्थत्याग का पथ ही अद्भुत है। अभी और भी सीढ़ियाँ शेष होंगी ?

दीनानाथ—यह मैं कैसे कह सकता हूँ ? जब मैंने इस पथ पर चलना आरम्भ किया, तब इसमें कितनी सीढ़ियाँ हैं, यह मुझे कहाँ दीखता था ? पहले मैं इस पथ पर चलने के लिए विषयभोग का त्याग ही यथेष्ट समझता था, पर उसके पश्चात् तो न-जाने कितनी परीक्षाएँ देनी पड़ीं, कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ीं। एक-एक इन्द्रिय ने विप्लव किया है, छोड़ी हुई वासनाओं का सुख स्मरण आया है, तुम्हारे और बच्चों के कष्ट ने सताया है, कदाचित् इसी लिए विवाह की इच्छा न रहते हुए भी विवाह हुआ था। अनेक लोगों ने एवं

अनेक अभिन्न मित्रों तक ने मेरे पथ की नाना प्रकार की आलोचनाएँ की हैं, हँसी उड़ाई है।

कमला—पर फिर भी आपने अपना पथ परिवर्तित कहाँ किया ?

दीनानाथ—हाँ परिवर्तित तो नहीं किया, पर अनेक बार हृदय में सन्देह अवश्य उत्पन्न हुआ कि मेरा पथ ठीक है या मैं पथभ्रष्ट हूँ। अनेक बार भासित हुआ कि यह तो ऐसा पथ है, जिस पर मैं अकेला ही चल रहा हूँ, कोई साथी तक नहीं। ऐसे अवसरों पर घने जंगल में एक तंग पगडंडी पर चलनेवाले अकेले पथिक की जो दशा होती है, वही मुझे भी अपनी जान पड़ी पर..... ( रुक जाता है। )

कमला—पर ?

दीनानाथ—पर उन सब परीक्षाओं को देने के समय, इन सब साधियों पर चढ़ने के समय, हृदय ने इस प्रकार की निर्बलता नहीं दिखलाई। जब कीर्ति गई और अपयश हुआ, तब हृदय भी एक बार निर्बल हो गया। हर्ष की बात है, कमला, कि विवेक ने अन्त में इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण करा दिया, इस सीढ़ी पर भी चढ़ा दिया। (कमला सिर हिलाती है) जिस प्रकार सोने की परीक्षा के लिए काली कसौटी है, उसी प्रकार हृदय की परीक्षा के लिए भगवान् ने कदाचित् ये वाधाएँ बनाई हैं। विना सान पर चढ़ाये जिस प्रकार रत्न में दीप्ति नहीं आती, उसी प्रकार विना परीक्षाओं के हृदय भी कदाचित् प्रकाशित नहीं हो सकता।

कमला—चलिए, चलते जाइए, जो आपकी इच्छा हो करते जाइए। पर इसे हठ के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता।

दीनानाथ—नहीं, कमला, यह हठ नहीं है। हठ और प्रतिज्ञा-पालन का व्यवहार चाहे एक सा दीखे, पर दोनों में बड़ा अन्तर है।

कमला—क्या अन्तर है ? मुझे तो कुछ नहीं दीखता।

दीनानाथ—हठ के पीछे कोई सिद्धांत नहीं रहता, परंतु प्रतिज्ञा-

पालन सिद्धांत पर अवलंबित रहता है। प्रतिज्ञा-पालन के विचार और कार्य उसे निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाते हैं।

कमला—जिसे अपनी पत्नी, अपने रक्त से उत्पन्न बच्चों की चिन्ता नहीं.....

दीनानाथ—नहीं, कमला, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की चिन्ता है, बहुत अधिक चिन्ता है, अपने शरीर से भी अधिक, पर, हाँ उतनी ही, जितनी दूसरी स्त्रियों और दूसरे बच्चों की।

कमला—( घृणा से ) आप इस संसार में नहीं, स्वप्न के संसार में रहते हैं।

दीनानाथ—( कुछ सोचते हुए ) कदाचित् यह सत्य हो, परंतु स्वप्न के संसार में रहने से स्वप्न के कुछ सुखों की प्राप्ति हो जाती है। जो केवल इस संसार में रहते हैं, उन्हें तो इस संसार का दुःख ही दुःख मिलता है।

कमला—( लंघी साँस लेकर क्रोध से ) भगवान् ने आपको हृदय नहीं, पत्थर दिया है, और क्या कहूँ।

[ शीघ्रता से प्रस्थान। दीनानाथ भी कुछ सोचता हुआ जाता है।  
परदा उठता है। ]

## दूसरा दृश्य

स्थान—शक्तिपाल के मकान का वही कमरा।

समय—प्रातःकाल।

[घड़ी में आठ बजने को पाँच मिनट हैं। यात्रा के त्वास कपड़ों में एक चमड़े का बैग हाथ में लिये मार्गरेट का प्रवेश। वह लिखने के टेबल के निकट जा बैग उस पर रखती है और बैग में से दोनों थरमामीटरों को निकाल एक को मुँह में और दूसरे को बगल में लगा हाथघड़ी को देखता है।]

मार्गरेट—( कुछ देर पश्चात् मुँह का थरमामीटर निकाल कर ) ओह ! नाइंटीएट पाइंट फाइव । ( बगल का निकाल कर ) नाइंटीएट पाइंट वन ।

( दोनों थरमापीटर केसों में रख राइटिंग टेबल के पास जा दोनों को बैग में रख देती है, फिर सोफ़ा पर बैठ नब्ज देखती है । ) एट्टीवन । ( खड़े होकर नब्ज देख कर ) नाइंटी । ( सोफ़ा पर लोट कर नब्ज देख कर ) सेवंटीसिक्स ।  
रादर एक्साइटेड ।

[ श्रीनिवास का अँगरेजी वस्त्रों में प्रवेश ]

श्रीनिवास—( टोप उतारते हुए ) गुडमॉर्निंग, मिसेज़ वर्मा ।

मार्गरेट—गुडमॉर्निंग, गुडमॉर्निंग, मिस्टर शीनिवैश ।

श्रीनिवास—आप तो चलने के लिए तैयार हैं ?

मार्गरेट—यस, मिस्टर शीनिवैश, गोकि आज हमारा टेंप्रेचर जाडा और पल्स भी एक्साइटेड, आज दो वेड में कन्फ़ाइन होने का माफ़िक हेल्थ, लेकिन हम लोग दो शिमला चलटा । वहाँ का क्लाइमेट, दो वोट आचा ।

श्रीनिवास—हाँ, हाँ, वह तो हेल्थ रिजॉर्ट है, और फिर मैं आपके साथ हूँ । आप जानती हैं दूर में मैं आपके हेल्थ की कितनी केयर रखता हूँ ।

मार्गरेट—हाँ अब दो आपका साट घूमटे-घूमटे दोन साल का करीव हो गया । आपका केयर के लिए दो हम वोट थैंकफुल । हम चलटा ।

श्रीनिवास—( हाथ की घड़ी देखते हुए ) मिस्टर वर्मा से तो आप मिल लीं न, और आपका लगेज तो स्टेशन गया न ? क्योंकि गाड़ी जाने में पन्द्रह मिनट ही हैं ।

मार्गरेट—हाँ, हाँ, हम उससे मिल लिया, लगेज भी स्टेशन गया । हम आपका साट चलने को एकडम टैयार । ( राइटिंग टेबल के निकट जाकर बैग उठा श्रीनिवास के पास जाकर ) चलिए, मिस्टर शीनिवैश ।

श्रीनिवास—चलिए ।

[ दोनों का प्रस्थान । शक्तिपाल के दो सेक्रेटरियों का प्रवेश । दोनों कारंग

सँवला है और दोनों अँगरेजी ढंग के कपड़े पहने हैं। दोनों की बगल में दो बड़े-बड़े फ़ाइल दबे हुए हैं। दोनों फ़ाइलों को लिखने की टेबल पर रख देते हैं और कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। ]

एक—( घड़ी की ओर देख कर ) वेल मिस्टर शर्मा, हम लोग पाँच मिनिट देर से आये हैं। गनीमत है कि मिनिस्टर साहब अब तक नहीं आये, नहीं तो सँडे को भी पाँच मिनिट देर से आने के लिए पन्द्रह मिनिट की एक स्पीच सुननी पड़ती।

दूसरा—हाँ, भाई, इस मिनिस्टर ने तो आकत कर डाली; छुट्टी के दिन भी छुट्टी नहीं। ठीक वक्त बँगले पर आओ, सुबह आओ, रात को आओ, ठीक वक्त आफिस में पहुँचो, पर आफिस से जाने का कोई ठीक वक्त मुकर्रर नहीं। एक-एक कागज़ को ठीक तरह से रक्खा, चाहे कोई रद्दी भी हो, क्योंकि न-जाने किस वक्त रेफरेंस के लिए कौन कागज़ माँगा जाय, ज़रा देर हुई कि डाँट पड़ी।

पहला—फिर जब कौंसिल का सेशन होता है, तब तो इसके सिर पर भूत सवार हो जाता है।

दूसरा—और बोलता वह हम लोगों के सिर पर है।

पहला—इस साल कौंसिल के सेशन के वक्त ही एक्ज़ीविशन करा दी, तब तो जान जाते-जाते बची।

दूसरा—राम-राम करते-करते ये तीन साल बीतने पर आये हैं। ऐसा तो कोई मिनिस्टर नहीं हुआ।

पहला—भाई, सोशलिस्ट मिनिस्टर हैं कि तमाशा ?

दूसरा—पर तीन साल की मेहनत के बाद भी यह कर क्या सका ? सोशलिज्म एक पैर भी आगे बढ़ा ? कैबिनेट में इसकी कोई स्कीम कभी मंज़ूर नहीं होती ! कौंसिल में मिनिस्टर होने के सबब यह कोई बिल बंगरह ला नहीं सकता। याद नहीं, इसकी पार्टी में से एक मंत्री जो किसानों के हक बढ़ाने की वाकत बिल लाया था, और एक जो

मजदूरों के काम करने के दस घंटों से आठ घंटे, और फ़ैक्टरी में काम करने वाले लड़कों को उम्र ग्यारह साल से पन्द्रह साल कराना चाहता था. दोनों अपनी सोशलिस्ट पार्टी में ही इतने बदनाम हुए कि उन्हें अपनी पार्टी का ही कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिला ।

पहला—अरे नाम की सोशलिस्ट पार्टी है । ज़र्मीदारों और पूँजी-पतियों से भरी हुई है । सोशलिज्म-सोशलिज्म चिल्लाने से ही सोशलिज्म कायम नहीं हो सकता ।

दूसरा—हम छोटे-छोटे सेक्रेटरियों और क्लर्कों को कोल्हू के चैलों के माफ़िक चलाने के सिवा और मिनिस्टर साहब क्या कर सके ?

पहला—कर ही क्या सकते थे ? पहले तो कोई अख्यारात नहीं. दूसरे पार्टी का यह हाल, तीसरे कमिश्नरियों के कमिश्नर, जिलों के डिप्टी कमिश्नर और इन्हीं के डिपार्टमेंटों के यूरोपियन और सीनियर सेक्रेटरी तक इनकी रत्ती भर परवा नहीं करते । जो खुशी होती है, करते हैं । बात यह है कि ये सब लोग जानते हैं कि उनकी सर्विस परमेनेंट है और ये मिनिस्टर रोज़ आते और रोज़ जाते हैं ।

दूसरा—और थोड़े दिन हैं । इस दफ़्त के चुनाव में यह कभी नहीं जीत सकता । इतनी मेहनत करने पर भी गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों में बदनाम हो गया है । फिर इसकी पार्टी भी न जीतेगी, क्योंकि इसके ज्यादातर मेंबर ही इस पार्टी की तरफ़ से खड़े होना नहीं चाहते ।

पहला—इस दफ़्त उसका सबसे बड़ा मददगार श्रीनिवास भी तो चुनाव के लिए कुछ नहीं कर रहा है ।

दूसरा—यह क्यों ?

पहला—एक तो इन दोनों में भ्रव बनती नहीं, दूसरे श्रीनिवास को पार्लिटिक्स में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है । देखते नहीं, कौंसिल के



सेशन तक में वह बहुत कम आता है और तीसरे, तुमने सुना नहीं कि वजनेस में उसे बड़ा घाटा है, इज्जत बच जाय तो बड़ी बात है ।

दूसरा—अच्छा, वह तो बड़ा अक्लमंद आदमी था ।

पहला—सब अक्ल मागरेट की क़दमवोसी में खर्च हो गई । मिनिस्टर साहब की सारी तनख्वाह वह चाट जाती है, इतना ही नहीं, श्रीनिवास को भी वह दिवालिया बनाने के फिराक में है ।

[ लंबा चोगा ( ड्रेसिंग गाउन ) और स्लीपर पहने नंगे सिर शक्तिपाल का प्रवेश । दोनों सेक्रेटरी उसे देखकर खड़े हो जाते हैं । ]

एक—गुड मॉर्निंग सर ।

दूसरा—गुड मॉर्निंग सर ।

शक्तिपाल—गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग । ( घड़ी की ओर देखकर ) ओह ! आ एम आफुली सॉरी । एक्स्क्यूज मी मिस्टर शर्मा, एंड मिस्टर गुप्ता, मिसेज वर्मा आज शिमला जा रही थीं, इसी से कुछ लेट हो गया ।

एक—दैट्स आल राइट, सर ।

दूसरा—ओह ! काइट आल राइट, सर ।

शक्तिपाल—आप लोग दस्तखत के लिए पेपर्स ले आये हैं ?

एक—जी हाँ, सब तैयार हैं ।

[ शक्तिपाल दफ्तर की कुर्सी पर बैठता है । दोनों सेक्रेटरी अपने-अपने फाइल उठा कुर्सी के दिनों ओर खड़े हो जाते हैं । ]

शक्तिपाल—पहले आप अपने पेपर्स पुट अप कीजिए, मिस्टर वर्मा ।

एक—बहुत अच्छा । ( फाइल खोलकर एक कागज़ टेबल पर रखता है । )

शक्तिपाल—( चश्मा उतार कर पढ़ते हुए ) ओ ! यह तो वही लेटर है, जो कल मैंने डिक्टेट कराया था ?

पहला—जी हाँ ।

[ शक्तिपाल हस्ताक्षर करता है । वह दूसरा कागज़ रखता है । ]

शक्तिपाल—(उसे पढ़ते हुए) यह तो मेरा डिक्टेट कराया हुआ नहीं है !

पहला—जी नहीं !

शक्तिपाल—इस में जिन काराजात का रेफरेंस दिया गया है, वे पेश कीजिए ।

पहला—(कुछ घबराकर) वे तो आफिस में हैं ।

शक्तिपाल—(कुर्सी से टिक उसकी ओर देखते हुए) आप जानते हैं कि मैं तो सब काराजातों को पढ़े वगैर किसी चिट्ठी पर दस्तखत नहीं करता ।

पहला—पर इसके रेफरेंस के काराजात तो इतने ज्यादा थे कि चाइसिकिल के कैरियर पर नहीं आ सकते थे ।

शक्तिपाल—तो आपको ताँगा किराया कर लेना था । अब तो इस पर कल इसी वक्त दस्तखत होंगे, क्योंकि संडे के सबब आफिस की तो आज छुट्टी है । (कुछ ठहरकर) देखिए, मिस्टर शर्मा, आपको मेरे पास काम करते तीन साल होने आते हैं, आप जानते हैं मैं किसी काम को पैडिंग नहीं रखना चाहता और आप हमेशा इसी तरह की गलती करते हैं ।

[ चपरासी का प्रवेश । वह सलाम करता है ]

चपरासी—नगरसेठ साहब तशरीफ लाये हैं, हज़ूर ।

शक्तिपाल—(सेक्रेटरियों से) अच्छा देखिए मिस्टर शर्मा, और मिस्टर गुप्ता, आज बहुत देर हो गई है और कुछ लोगों से मेरे आज एंजोमेंट्स भी हैं । वेहतर होगा कि आप दोनों कुल काराजात लेकर आज रात को ठीक साढ़े आठ बजे यहाँ आवें ।

पहला—(उदास होकर) बहुत अच्छा ।

दूसरा—(उदासी से) अच्छी बात है ।

[ दोनों का नमस्कार कर प्रस्थान ]

शक्तिपाल—(चपरासी से) सेठ साहब को सलाम दो ।

[ चपरासी का सलाम कर प्रस्थान । शक्तिपाल चश्मा लगाकर  
सोफा पर बैठ भिगरेट जलाता है । ]

शक्तिपाल—( जोर से ) चपरासी ! चपरासी !

[ चपरासी फिर आकर सलाम करता है । ]

शक्तिपाल—देखो, उन्हें बहुत खातिर से भेजना ।

चपरासी—जो हुकुम, सरकार । ( सलाम कर जाता है । )

[ घुटने तक चढ़ी हुई धोती और अंगरखा पहने, गले में दुपट्टा  
डाले मस्तक पर रामानदी तिलक और सिर पर पगड़ी लगाये,  
साँवले रंग के मोटे से सेठ का प्रवेश । ]

सेठ—( दोनों हाथ सिर पर लगाते हुए ) जै गोपाल, जै गोपाल  
मिनश्टर शाव ।

शक्तिपाल—( खड़े होकर हाथ जोड़ कर नमस्कार का उत्तर दे ) बैठिए,  
सेठ साहब, कहिए आप अच्छी तरह हैं ? बहुत दिनों बाद आपका  
नियोज हासिल हुआ । ( बैठता है )

सेठ—( बैठते हुए ) पियाज तो म्हे लोग खाँवाँ ई कोनी मिनश्टर  
शाव. आपने यूँई कदेई श्यूं बाश आई होशी ।

शक्तिपाल—( मुसकराकर जोर से ) नहीं-नहीं, सेठ साहब, मेरा मतलब  
यह था कि आप बहुत दिनों बाद आये ।

सेठ—हो ! मैं थोड़ा ऊँचो शुरा हूँ । आपने जद बुलाओ वीं बखत  
तो आयो ई, मिनश्टर शाव !

शक्तिपाल—( जोर से ) हाँ-हाँ, यह तो आपकी ( साधारण स्वर में )  
नवाजिश है ।

सेठ—नुमाइस तो म्हारी काँई आपकी ही है, म्हा का बावा ! म्हे  
कोई नुमाइस कर सकाँ हाँ । और भोत चोखी हुई मिनश्टर शाव, प्रागजी  
में इशी नुमाइश देख वा मा आई ही, वीं के पीछे तो कदेई इशी नुमाइश  
कोनी देखी ।

को रोकते हुए जोर से ) मेरा नुमाइश से मतलब  
वह तो सचमुच अच्छी हुई, हालाँकि इलाहाबाद

वह कुछ भी नहीं थी। इस वक्त तो मैंने यह अर्ज किया  
। मुझ पर हमेशा ही मेहरवानी रहती है।

हो ! मेहरवानगी तो आप लोगों को चाये. मिनशटर शाव ।  
।ँ को क्याँ को महरवानगी म्हाँ का-वावा !

[ शक्तिपाल सिगरेटकेस आगे करता है । ]

सेठ—( हाथ जोड़ते हुए ) मैं पिऊँ नई हूँ, मिनशटर शाव ।

शक्तिपाल—( सिगरेट केस हटाते हुए ) सेठ साहब, मैं फिर खड़ा  
हो रहा हूँ ।

सेठ—( जल्दी से खड़े होकर ) क्यूँ खुरशी पर कोई जिनावर इनावर  
तो कोनी है क ?

शक्तिपाल—( हँसी को रोकने के लिए खाँसते हुए जोर से ) नहीं-नहीं.  
मेरा मतलब कौंसिल के लिए खड़ा होने का है । आप जानते हैं चुनाव  
फिर आ गया है ।

सेठ—( बैठते हुए ) हो ! परण मिनशटर शाव, ई वखत तो आप  
खड़ा नई होवो तो चोखी बात है । क्यूँ भगड़ा में पड़ो हो ?

शक्तिपाल—(जोर से) क्याँ, सेठ साहब, क्या लोग मुझसे नाराज हैं ?

सेठ—( बगलें झोंकते हैं ) नई नाराजी की-तो बात कोनी, परण  
मिनशटर शाव, आप जद मने भरोसा कर बुलायो है तो मने भी आप  
श्यूँ शाँची शाँची बात के देनी चाये ।

शक्तिपाल - जरूर-जरूर ।

सेठ—अवार ऊँन्याला की मोशाम माँ, जद उल्टी दशताँ की बेमारी  
फैली ही, वी वखत आप मुनश्यपाल्टी का प्रेशीडेंट शाव के शागे गाँव में  
धूमकर हलवायाँ की दुकानाँ श्यूँ मिठाई फिकवाई ही न, और फलाँ का वेपा-  
रियाँ का फल वी फिकाया हा न, और कूँजड़ा की शागभाजी वी फिकाई ही न ?

शक्तिपाल—( जोर से ) जरूर, क्योंकि हलवाइयों की दुकानों में बहुत-सी गंदी मिठाई थी, फलवाले और कूँजड़े बहुत-से सड़े हुए फल और शाकभाजी बेचते थे, उससे हैजा बढ़ रहा था, सेठ साहब ।

सेठ—पण लोग इतनों अवार कठे शमजे है, म्हाका बाबा ! लोग आप श्यूँ नाराज हो गया है, मिनश्टर शाब, कवै है आपने तो हजारों की तनखा मिले हैं, आप गरीबाँ की गरीबी कठे देखी ।

शक्तिपाल—पर, सेठ साहब, आप लोग तो अरबन के वोटर...

सेठ—( हाथ जोड़ते हुए ) म्हारा तो आप मालक हो, मिनश्टर शाब, आम्हारी आपकी अनवन की बात कोनी ।

शक्तिपाल—( जोर से ) नहीं-नहीं मेरा मतलब अनवन से नहीं था । मेरा मतलब था कि आप लोग जो शहरों में रहनेवाले हैं, उन्हें तो इन सब बातों को समझना चाहिए ।

सेठ—हो ! पण मिनश्टर शाब, लोग अतनी नई शमके है । खैर, आप खड़ा होशयो तो मैं तो आपकी जठे ताणी होशी मदत जरूर ही करश्यूँ ।

शक्तिपाल—मैं आपका निहायत शुक्रगुजार हूँ ।

सेठ—नई नई मिनश्टर शाब ! आप गुँवार नहीं, आप तो हर तरश्यूँ बुदी वाला हो । लोग ही गुँवार ....

शक्तिपाल—( जोर से ) मेरा मतलब गुँवार से नहीं था, सेठ साहब, मैं तो, देखिये क्या कहना चाहिए, हाँ हाँ, आपको ( और जोर से ) धन्य-वाद दे रहा था ।

सेठ—हो ! ई की काई जरूरत है म्हाका बाबा ! मैं तो आपको ई हूँ । मने तो आप कैशयो जिंयाई करश्यूँ ।

[ चपरासी का चाँदी की रकाबी में एक कार्ड लेकर प्रवेश ।

चपरासी संलाम कर, रकाबी आगे करता है । ]

शक्तिपाल—( कार्ड उठा चश्मा निकाल कर कार्ड को पढ़, चश्मा

लगाते हुए चपरासी से ) उन्हें अच्छी तरह बैठायो, मैं उनसे अभी मिलूँगा ।

[ चपरासी का सलाम कर प्रस्थान ]

सेठ—तो अब मने भी इजाजत होय, मिनश्टर शाव !

शक्तिपाल—( खड़े होते हुए ) बहुत खूब, तो आपकी तो मदद मुझे जरूर ही रहेगी । ( जोर से ) और आप कोशिश करेंगे कि शहर के मारवाड़ी और महाजन वगैरह मुझे ही वोट दें ।

सेठ—( खड़े होते हुए ) जरूर मिनश्टर शाव, जरूर । ( जाते हुए ) जै गोपाल, मिनश्टर शाव, जै गोपाल !

शक्तिपाल—( बैठते हुए ) जै गोपाल, सेठ साहव, जै गोपाल ।

[ सेठ का प्रस्थान ]

शक्तिपाल—( जोर से ) चपरासी !

[ चपरासी की प्रवेश । वह सलाम करता है । ]

शक्तिपाल—जमींदार साहव को बहुत खातिर से भेज दो ।

[ चपरासी का प्रस्थान । एक ठिंगने कद के मनुष्य का चोगा, चपकन और पाजामा पहने तथा साफा बाँधे हुए प्रवेश । रंग साँवला है और दाँदी है । वह एक हाथ से जमीन तक झुक कर सलाम करता है । ]

शक्तिपाल—( खड़े हो सलाम का उत्तर देते हुए ) आइए, जमींदार साहव, और जमींदार साहव ही क्यों, क्राइस्टरी ओनर साहव भी, आइए, तशरीफ लाइए ।

[ दोनों बैठते हैं ]

शक्तिपाल—कहिए साहव मिजाज अच्छा है ? ( सिगरेट केस आगे करता है । )

जमींदार—हुजूर की मेहरवानी है । ( सिगरेट लेकर जलाता है । )

शक्तिपाल—आज मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी है कि चुनाव फिर नजदीक आ रहा है ।

जमींदार—मैं तो हर तरह से सरकार की खिदमत को तैयार हूँ, लेकिन.....

शक्तिपाल—लेकिन क्या जनाव ?

जमींदार—जब हुजूर ने मुझे अपना समझ तलब फरमाया है तो मेरा भी फर्ज है कि मैं सच-सच बात सरकार की खिदमत में अर्ज कर दूँ।

शक्तिपाल—वेशक।

जमींदार—गुजारिश यह है कि गरीबपरवर की पार्टी के एक मैबर ने काश्तकारों के हकूकों के मुताल्लिक एक विल कौंसिल में पेश किया था न और एक ने फ़ैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों के दस घंटे से आठ घंटे कर देने की वाबत।

शक्तिपाल—हाँ, ये तो बड़े अच्छे विल थे, अतसोस है कि पास न हो सके।

जमींदार—पर, हुजूर, इन विलों के सबब सभी जमींदार और फ़ैक्टरीवाले सरकार को पार्टी के खिलाफ़ हो गये हैं; क्या कहूँ।

शक्तिपाल—लेकिन, जमींदार साहब, दरअसल वे विल जमींदारों और फ़ैक्टरी आंसों के खिलाफ़ नहीं थे। इस वक्त तो आप जानते हैं, जमींदारों और काश्तकारों, फ़ैक्टरी आंसों और मजदूरों, सभी को तकलीफ़ है। जब ज़मीनों पर किसानों के हक़ बढ़ेंगे तो वे उनकी और तरफ़ो करेंगे, इस से जमींदारों की जायदाद की क़ीमत बढ़ेगी। फ़ैक्टरी के मजदूरों के घंटे कम हो जाने से उनकी तन्दुरुस्ती सुधरेगी, वे ज्यादा काम कर सकेंगे।

जमींदार—यह तो जनाव का फ़रमाना बजा है, लेकिन, गरीब-परवर, अभी लोग इतना समझते कहाँ हैं ? उन लोगों का तो अब यह पक्का यक़ीन हो गया है कि सोशलिज़्म में उनको जायदादें ज़न्त कर ली जायँगी।

शक्तिपाल—यह तो सोशलिज्म का आखिरी स्टेज है और उस वक्त तो दुनियाभर में किसी के पास भी जायदाद न रह जायगी. तब यहीं के लोगों को घबराने की क्या ज़रूरत है ? फिर वह वक्त तो ऐसे आराम का होगा, जिसका वयान तक नहीं किया जा सकता । इस वक्त की सब तरह की तकलीफें उस वक्त रफा हो जायँगी । अमीरी और गरीबी का कोई डिस्टिंक्शन ही न रह जायगा । गरीबों के सबब से आज अमीरों को भी तो तकलीफ है पर वह गरीबों के सबब से है और उसका इलाज दुनिया में गरीबी नहीं रखना है, इसे वे समझते ही नहीं ।

ज़मींदार—मैं तो अगर सरकार खड़े हुए तो जी-जान से सरकार की मदद करूँगा; लेकिन गुज़ारिश यह है कि.....

[ चपरासी का एक रक़ाबी में कार्ड लिये हुए प्रवेश । सलाम कर रक़ाबी आगे करता है । ]

शक्तिपाल—( चश्मा निकाल कार्ड पढ़ते हुए ) ओ ! ट्रेड यूनियन के सेक्रेटरी साहब । ( चपरासी से, चश्मा लगाते हुए ) उन्हें बहुत अच्छी तरह बैठायो । मैं अभी मिलता हूँ ।

[ चपरासी का सलाम कर प्रस्थान ]

ज़मींदार—तो मुझे अब इजाज़त हो सरकार ।

शक्तिपाल—( उठते हुए ) बहुत अच्छा । मैं आपका अज़हद शुक्र-गुज़ार हूँ । ज़मींदारों और फ़ैटरी ओनर्स के वोट आपके जिम्मे हैं ।

ज़मींदार—( उठने हुए ) मुझ से जहाँ तक हो सकेगा, मैं हुज़ूर की खिदमत करने में कोई बात उठा न रखूँगा, गरीबपरवर । ( ज़मीन तक झुककर एक हाथ से सलाम कर प्रस्थान । )

शक्तिपाल ( बैठते हुए ) चपरासी ! चपरासी !

[ चपरासी का प्रवेश । वह सलाम करता है । ]

शक्तिपाल—सेक्रेटरी साहब को भेज दो । ( चपरासी सलाम कर जाने



लगता है ) देखो, ( वह ठहर जाता है । ) बहुत खातिर से भेजना ।

चपरासी—बहुत खूब सरकार । ( सलाम कर जाता है । )

( खादी के कपड़ों में एक ऊँचे पूरे व्यक्ति का प्रवेश )

आगंतुक—गुड मॉर्निङ्ग, कामरेड शक्तिपाल !

शक्तिपाल—( उठते हुए ) गुड मॉर्निङ्ग, गुड मॉर्निङ्ग मिस्टर अग्र-  
वाला, टेक योर सीट सीज ।

[ दोनों बैठ जाते हैं । ]

अग्रवाला—वेल सर. इलेक्शन इज अगेन कमिङ्ग ।

शक्तिपाल—इसी लिए तो भाई तुम को बुलाया है । ( सिगरेट केस  
आगे करता है )

अग्रवाला—( मुँह बिचकाकर ) पर, भाई, इस समय तो तुम्हारी  
पार्टी को हमारे ट्रेड यूनियन के बहुत कम वोट मिलेंगे । ( सिगरेट  
जलाता है ) ।

शक्तिपाल—सोशलिस्ट को ट्रेड यूनियनिस्ट वोट नहीं देंगे ?

अग्रवाला—वात यह है कि तुम्हारी पार्टी के एक मैम्बर ने फ़ैक्टरी  
में काम करने वाले लड़कों की अवस्था बढ़ाने के सम्बन्ध में यत्न  
किया था न ?

शक्तिपाल—जरूर । इस में बुरा क्या किया ? वगैर इस के लड़कों  
को तालीम किस प्रकार दी जा सकती है ?

अग्रवाला—ठीक है, परन्तु मजदूरों को उन के लड़कों के काम से  
अभी जो थोड़े-बहुत पैसे मिल जाते हैं, वे तो उन्हें देखते हैं । वे अभी  
इतने फ़ार साइटेड कहाँ हुए हैं ।

शक्तिपाल—तुम लोग उन के लीडर हो, तुम्हें उन को सम-  
झाना चाहिए ।

अग्रवाला—भाई यदि हम लोग अपना पोजीशन रखना चाहें  
तो हमें उन्हीं की इच्छाओं के अनुसार चलना पड़ता है । यथार्थ में हम

लोग लीडर नहीं, लेड हैं। फिर एक बात और है।

शक्तिपाल—वह क्या ?

अगरवाला—( शक्तिपाल के निकट सरक कर धीरे धीरे ) चुनाव के समय उन्हें कुछ खाने-पीने को देना पड़ता है।

शक्तिपाल—( त्थोरी बदल कर ) यह आप किस से बात कर रहे हैं, जनाव ?

अगरवाला—( बेपरवाही और घृणा से हँस कर ) लीजिए, आप तो तोते के समान आँख ही बदलने लगे। अजी साहब, मैं कोई ज़मींदार या सेठ-साहूकार नहीं हूँ कि आप के आँखें दिखाने से डर जाऊँ। जब आप ने बुलाया, तब आप के वङ्गले पर आया हूँ। और आप बुला कर मुझे अपने रूम के ही अंदर इन्सल्ट कर रहे हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि मैं किस से बात कर रहा हूँ। मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ हज़रत, जिन के चुनाव में गतवर्ष श्रीनिवास साहब ने दो हज़ार रुपया हमारे यूनियन को दिया था।

शक्तिपाल—उन्होंने दिया होगा, मैंने नहीं दिया ?

अगरवाला—वे आप के एलेक्शन एजेंट नहीं थे ?

शक्तिपाल—स्वैर, जाने दीजिए उस बात को। अब श्रीनिवास से चुनाव से कोई मतलब नहीं है। इस तरह रिश्वत बाँटना और वोटों को कुरूप करना मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। मैं यह सब नहीं कर सकता।

अगरवाला—तो फिर आपको ट्रेड यूनियन से ( सिर हिलाकर ) एक वोट भी नहीं मिल सकता। ( खड़े होते हुए ) गुड बाई ( जाता है )

[ शक्तिपाल ठठकर इधर-उधर टहलता है। चपरासी का प्रवेश। ]

चपरासी—( मलाम कर ) दीनानाथ जी तशरीफ लायें हैं, सरकार।

शक्तिपाल—अच्छा, मैं खुद चलता हूँ।

[ शक्तिपाल का प्रस्थान। दीनानाथ और शक्तिपाल का पुनः प्रवेश। दोनों सोफा पर बैठ जाते हैं। ]

शक्तिपाल—( मुनकराते हुए ) आपको तो सिगरेट ऑफ़र करना ही फ़ज़ूल है। और किस चीज़ से खातिर कलूँ, यह भी समझ में नहीं आता।

दीनानाथ—मित्रों से अेंट ही आतिथ्य-सत्कार के लिए यथेष्ट है। अपने मुझे आज स्मरण किया, यही मेरा आतिथ्य-सत्कार है शक्तिपालजी।

शक्तिपाल—वाजिब तो यह था कि मैं खुद ही आपके पास हाज़िर होता मगर वहाँ तो हमेशा इतनी भीड़भाड़ रहती है कि कोई बात ही होना मुश्किल है।

दीनानाथ—वह तो एक ही बात है, शक्तिपालजी, मैं सेवा में उपस्थित हो गया। आज्ञा दीजिये, यदि मैं आपकी कोई भी सेवा कर सका तो अपने को सौभाग्यशाली समझूँगा।

शक्तिपाल—इसकी तो मुझे हमेशा ही उम्मीद रहती है। जिनसे आपका ताल्लुक नहीं, उनका काम भी जब आप अपना समझकर करते हैं, तब मैं तो आपका इतना पुराना दोस्त ठहरा।

दीनानाथ—मैं तो अपने को हर एक का सेवक ही समझता हूँ, शक्तिपालजी।

शक्तिपाल—आप जानते ही हैं कि कौंसिल का चुनाव नज़दीक आ रहा है। मैं फिर खड़ा हो रहा हूँ। आपको खिदमात के सबब आज इस जिले क्या, तमाम सूबे पर आपका जो असर है, उसे मुल्क-भर जानता है। मैं आपकी मदद चाहता हूँ।

दीनानाथ—आप स्वयं विचार सकने हैं कि यदि मैं आपकी कोई भी सेवा कर सकूँ तो मुझे कितना हर्ष हो, परंतु जो आज्ञा आप मुझे दे रहे हैं, उस संबंध में तो कुछ भी करना मेरे लिए संभव नहीं है।

शक्तिपाल—क्यों, क्या मैंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया है?

दीनानाथ—पूरी ईमानदारी से शक्तिपालजी, मैं जानता हूँ, आज देश में आप से अधिक सच्चा और ईमानदार कोई मिनिस्टर नहीं है।

शक्तिपाल—तब क्या आप मुझे मिनिस्टरी और कौंसिल के लायक नहीं समझते ?

दीनानाथ—आपकी लायकी पर मुझे न कभी सन्देह था, और न आज है ।

शक्तिपाल—फिर ?

दीनानाथ—ये कौंसिलें और कौंसिलों के ये पद आपके योग्य नहीं हैं ।

शक्तिपाल—( सिगरेट जनाकर चुमकराते हुए ) यह तो वही पुरानी वहस निकल आई, दीनानाथ जी, मैं फिर कहता हूँ मौजूदा हालात में भी इन कौंसिलों के सिवा मुल्क की खिदमत करने का और कोई रास्ता नहीं है ।

दीनानाथ—यही तो मतभेद का प्रश्न है । आरम्भ ही से आप का और मेरा इस सम्बन्ध में मतभेद रहा है, पर अब तो आपने इसका अनुभव भी कर लिया; चमा कोजिएगा. यदि मैं पूछूँ कि इन तीन वर्षों में आपके इस कार्य का क्या फल निकला ?

शक्तिपाल उसका सबव दूसरा है, दीनानाथ जी. मेरी पार्टी से ज्यादातर ऐसे लोग गये थे, जो सच्चे दिल से सोशलिस्ट खयालातों के नहीं थे । इस दका मैं इस तरह के लोगों को खड़ा ही न करूँगा ।

दीनानाथ—तो जिन्हें आप खड़ा करेंगे, वे सफल ही न होंगे ।

शक्तिपाल क्यों ?

दीनानाथ—इसलिए कि आज इस देश की जनता पर ऐसे ही लोगों का प्रभाव है, जो साम्यवादी नहीं है । जमींदार, सेठ-साहूकार, इन्हीं सब का लोगों पर प्रभाव है और साम्यवाद इन सब के स्वार्थों के विरुद्ध है ।

शक्तिपाल—लेकिन क्या आप यह नहीं मानते कि गुजिरता तीन सालों में इस तरह के लोगों का असर घंटा है ।

दीनानाथ—थोड़ा-बहुत चाहे घटा हो पर इतना नहीं घटा कि आप सच्चे साम्यवादियों को चुनाव में सफल करा सकें ।

शक्तिपाल—इसी तरह धीरे-धीरे कौंसिल में कोशिशों होने से इनका असर कम होता जायगा ।

दीनानाथ—तो क्या आप यह समझते हैं कि गत तीन वर्षों के कौंसिल के कार्य से इस प्रकार के लोगों का प्रभाव घटा है ?

शक्तिपाल—वेशक । मेरी पार्टी के कुछ सोशलिस्ट मेंबरों ने जो सोशलिज्म को आगे बढ़ाने की कौंसिल में कोशिशों कीं और उनकी कोशिशों का जो प्रोपेगैंडा किया गया, खास कर उसी का यह नतीजा है । हाँ, आपके कामों से भी सोशलिज्म के खयालात को जरूर मदद मिली है ।

दीनानाथ—इसमें भी मेरा आपसे मतभेद है ।

शक्तिपाल—कैसा ?

दीनानाथ—कौंसिल में जो कुछ भी हुआ है, उसका कोई भी प्रभाव जनता पर नहीं पड़ा ।

शक्तिपाल—( आश्चर्य से ) अच्छा !

दीनानाथ—वात यह है कि कौंसिल में इस सम्बन्ध में जो कुछ हुआ है, उसे छपवा कर आपके दल ने बँटवाया भर है, पर यहाँ पर तो सौ में नब्बे मनुष्य अशिक्षित हैं । जो शिक्षित हैं वे आपके सिद्धांतों के विरुद्ध हैं, अतः उन्होंने जो कुछ आपके दल के कुछ सदस्यों ने किया, उसके मनमाने अर्थ लगा कर लोगों को समझाया ।

शक्तिपाल—मुझे तो कैबिनेट में रहने के सबब इतना वक्त नहीं मिलता कि मैं दौड़-धूपकर इन सब बातों को समझा सकूँ, इसलिए जो कुछ वहाँ होता है, उसे छपवाकर बँटवाने के सिवा और मैं क्या कर सकता था ?

दीनानाथ—मैं इसे मानता हूँ और चूँकि आप को जनता के

संपर्क में आने का अवसर नहीं मिलता, इसीलिए आप भूल में हैं कि कौंसिल-कार्य के कारण ही जनता साम्यवाद के पक्ष में हो रही है।

शक्तिपाल—लेकिन, दीनानाथ जी, आपका तो आम लोगों से बहुत ज्यादा ताल्लुक है। कम-से-कम मेरे निस्वत इस तरह की गलत-फहमियों को आपको तो दूर करना चाहिए।

दीनानाथ—इसके लिए मैं तैयार हूँ और मैं सदा यह करता भी हूँ।

शक्तिपाल—(प्रसन्न होकर) तो फिर मैं अब तक के तमाम काम की तफ़्सील और अपना इलेक्शन मैनिफ़ेस्टो वगैरह आप को खिदमत में भेज दूँगा। आप इसके मुताल्लिक लोगों को सही-सही बात कह दें। हएना ही काफ़ी होगा।

दीनानाथ—यह मैं बराबर कर दूँगा, परन्तु इसी के साथ एक बात मुझे और कहनी पड़ेगी।

शक्तिपाल—वह क्या ?

दीनानाथ—यह कि आपके इतने ईमानदार और कार्यदक्ष होते हुए भी इन कौंसिलों से कोई लाभ न होगा, क्योंकि यदि साम्यवादी दल के लोग कौंसिल में पहुँच भी गये, तो कौंसिलों को कोई अधिकार नहीं, वे कुछ नहीं कर सकते।

शक्तिपाल—यह तो फिर डिफरेंस आक ओपिनियन का सवाल आ गया।

दीनानाथ—यह तो है ही, शक्तिपालजी, फिर एक बात और है।

शक्तिपाल—वह क्या ?

दीनानाथ—आपको तीन हज़ार रुपये वेतन मिलता था और आप सबका सब अपने रहन-सहन में खर्च कर देते थे, इससे लोगों को बड़ा असंतोष है।

शक्तिपाल—क्यों ? उस पर मेरा हक़ था। मैं अपनी तनख्वाह का चाहे कुछ भी कहूँ। क्या आप कह सकते हैं कि मिनिस्टर रहते हुए

तनखाह के सिवा किसी तरह का भी जाती कायदा उठाने की मैंने कोशिश की ?

दीनानाथ—फूटी कौड़ी भी आपने इधर-उधर की, यह यदि कोई भी कहे तो मैं कह सकता हूँ कि वह झूठा है। सभा में भाषण द्वारा या पत्रों में लेख द्वारा या जिस प्रकार कहे आपका समर्थन करूँगा; पर शक्तिपाल जी, आज जब देश के अधिकांश लोगों को यथेष्ट भोजन और वस्त्र नहीं मिल रहे हैं, तब हम में से किसी को यह अधिकार नहीं कि हम जनता की इतनी बड़ी रकम अपने पर खर्च करें और आप के सिद्धांतों के अनुसार भी तो यह एक प्रकार से पूँजीवाद का समर्थन है।

शक्तिपाल—सोशलिज्म के कायम होने के बाद अगर मैं ऐसा करूँ तो। जब तक सोशलिज्म कायम नहीं हो जाता, तब तक जाती कुर्बानी फिजूल है, यह मैंने आप से कई दफा कहा है। फिर, दीनानाथ जी, अगर मेरा जगह कोई दूसरा होता तब भी तो उसे यही तनखाह मिलती न ? मेरी पार्टी न भी गई तो कौंसिल की सीटें खाली न रहेंगी, कोई-न-कोई तो जावेगा ही ?

दीनानाथ—इसी लिए मैं आपका विरोध नहीं करता। सन् १९२३ के चुनाव में भी मैं तटस्थ था और सन् १९२६ के इस चुनाव में भी उसी प्रकार तटस्थ रहूँगा, पर जब मुझे इस कार्यक्रम पर विश्वास नहीं है, तब आप का समर्थन किस प्रकार करूँ, यह आप ही बता दीजिए ?

शक्तिपाल—( लंबी साँस लेकर ) आप को अपने उसूलों के खिलाफ चला कर मैं आप से हरगिज किसी तरह की मदद नहीं लेना चाहता दीनानाथ जी, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ।

दीनानाथ—यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ।

शक्तिपाल—आज दीनानाथ जी, मैंने कई हज़रत को अपनी मदद के लिए बुलाया था, पर सब से मुझे बड़ी नाउम्मीदी हुई, फिर भी मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। ईमानदारी से किया हुआ काम, कामयाबी न होने

पर भी, दुनिया में किजूल नहीं जा सकता, इस का मुझे यकीन है। चुनाव का तमाम काम अब मैं अकेला ही करूँगा और मुझे यकीन है कि मैं जरूर कामयाब होऊँगा।

दीनानाथ—आपके साहस को धन्य है। शक्तिपाल जी, ईमानदारी से किया हुआ कार्य असफल होने पर भी श्रेष्ठ ही होता है, यह मैं मानता हूँ; पर यदि उसी प्रकार का असफल कार्य, उसी असफलता के मार्ग से किया जाय तो उस में निरर्थक ही समय जाता है।

शक्तिपाल—हालाँकि आप को थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल हुई है, पर मुझको कोजिए मेरी राय आप से मुत्तफिक नहीं। सियासी अखबारों के जरिये जो कुछ आपने इतने सालों में किया है, वह एक दिन में किया जा सकता है।

दीनानाथ—एक दिन में लोकमत तैयार नहीं किया जा सकता, पर राजनीतिक आर्थिक कारणों से बहुत कुछ हो सकता है। इसे मैं अस्वीकृत नहीं करता। सारा प्रश्न यह है कि जब तक वे अधिकार प्राप्त नहीं होते, तब तक क्या किया जाय? ( कुछ ठहर कर ) अच्छा तो अब आज्ञा देंगे ?

शक्तिपाल—आप से जाने के लिए क्यों कर कहूँ ? हालाँकि आप की राय से मैं मुत्तफिक नहीं; पर न-जाने क्यों आप के पास बैठने और आप से बातें करने में एक अजीब किस्म की राहत मिलती है।

दीनानाथ—यह आप की कृपा है, शक्तिपाल जी, जब आज्ञा होगी तभी उपस्थित हो जाऊँगा।

[ दीनानाथ उठने लगता है। शक्तिपाल भी खड़ा होता है।

परदा गिरता है। ]



## तीसरा दृश्य

स्थान—सेवाकुटी का बाहरी मैदान

समय—संध्या

[ कमला और सरला का प्रवेश । ]

सरला—वहन, मैं तो जब-जब यहाँ आती हूँ, तब-तब उसी मुकुदमे का स्मरण हो आता है। इतनी लज्जा आती है कि क्या कहूँ; पर उस पाप का प्रायश्चित्त यहाँ आने और इस सेवा-पथ के कार्य में योग देने के अतिरिक्त और क्या है ?

कमला—उस बात को भूल जाओ; सरला, वर्षों बीत गये। और फिर मैं तो समझती हूँ कि वह मुकुदमा चलाकर श्रीनिवास जी ने हमारा उपकार ही किया था; इस जनता का सच्चा स्वरूप दिखा दिया था। उन के हृदय पर इसका प्रभाव भी पड़ा था, पर तुम तो अब उन्हें अच्छी तरह से जानने लगी हो।

सरला—हाँ, वहन, मैं तो उन्हें मनुष्य न मानकर देवता मानती हूँ। ज्ञान के वे केन्द्र और कर्म के वे क्षेत्र हैं। ज्ञान का सच्चा उपाजर्जन और कर्म का ठीक दिशा में अनुष्ठान ही मनुष्य को देवता बना देता है, क्योंकि ज्ञान का लक्ष्य सत्य, और कर्म का नीति है। दोनों का अंतिम परिणाम परमार्थ की प्राप्ति है, जो सेवा से ही होती है। वे इसी में संलग्न हैं। देखा नहीं, इसी रहस्य को समझने और अपने पथ पर अटल रहने के कारण जनता की वह अकीर्ति ग्रहण के सदृश किस प्रकार निकल गई और वे सूर्य के समान फिर से किस प्रकार चमकने लगे ?

कमला—हाँ, तुम कदाचित् ठीक कहती होगी। पर बात यह है कि “जाके पैर न फटी विवाई, सो का जानै पीर पराई।”

सरला—लो, तुम तो फिर उसी प्रकार बातें करने लगीं। न जाने कितने जीवों को उनके चरित्र और उपदेश से शांति मिल रही है, पर तुम्हें अभी भी नहीं।

कमला—मेरा दुर्भाग्य हो सकता है।

सरला—मुझ ही को देखो, कमला, मेरी जो सारी सम्पत्ति नष्ट हो रही है, वे जो इस प्रकार मार्गरेट को लिये हुए सारे देश में चकर लगा रहे हैं, इन सब दुःखों में मुझे इन्हीं के चरित्र को देख, इन्हीं के उप-देशों को सुन, शांति मिलती है। मैंने तो यहाँ दंड के रूप में, एक पाप के प्रायश्चित्त के निमित्त, आना आरंभ किया था, पर वह दंड सुख में परिणत हो रहा है।

कमला—मुझे तो तुम्हारा सुख देख कर आश्चर्य ही होता है।

सरला—मुझको ही नहीं, पर न-जाने, कितने, और कितने प्रकार के दुखियों को यहाँ शांति पहुँच रही है। तुम्हारे पति केवल निर्धन दुखियों की ही सेवा नहीं कर रहे हैं, धनवान दुखियों की भी सेवा कर रहे हैं, चरित्रहीन दुखियों की भी सेवा कर रहे हैं। इसी कारण तो उनके पास केवल किसान और मजदूरों का ही नहीं, बरन् बड़े-बड़े जमींदारों और सेठ-साहूकारों का भी जमघट लगा रहता है। तुम तो सदा यही समझती हो कि निर्धन ही दुखी हैं, पर मैं फिर तुमसे कहती हूँ कि धनवानों के दुःख निर्धनों के दुःखों से कहीं अधिक होते हैं।

कमला—तुम्हारी यह बात कभी पूर्ण रीति से मेरी समझ में नहीं आई।

सरला—क्योंकि तुम्हें उस जीवन का अनुभव नहीं है। धनवानों के घरों के षडयन्त्र और पापों का तुम्हें कहाँ अनुभव ? कहीं वाप दुखी है तो कहीं वेदो, कहीं पति दुखी है तो कहीं पत्नी, कहीं भाई दुखी है तो कहीं बहन और कहीं सारा घर। जब किसी घर की आय आवश्यकता की पूर्ति के अनुसार ही रहती है, तब सब लोग सच्चरित्र रह सन्तोष के साथ उसे वाँट कर सुख से खा लेते हैं, पर जब आवश्यकता से अधिक संचय होता है, तब उस संचय से न जाने कितने पापों की उत्पत्ति होती है और उसके वटवारे के लिए षडयन्त्रों और मगड़ों की सृष्टि।

सरला—नहीं नहीं, देखना क्या, मैं उसकी सदस्या बनूँगी और तुम्हारी उस कार्य में सहायता करूँगी। ( मुसकराकर ) अंत में तुम्हें भी महिला-समाज स्थापित करना ही पड़ा, क्यों ?

कमला—नरक का कीड़ा नरक में रहते-रहते उसमें ही सुख मानने लगता है। वहीं के जीवों के समान आचरण भी करने लगता है।

सरला—फिर वही बात ! फिर वही बात ! आह ! क्या कहती हो, चहन, क्या कहती हो ? तुम्हारा जीवन नरक का जीवन ! नहीं-नहीं, यह स्वर्ग का जीवन है, और संपत्तिशाली जीवन को तुम सुख का जीवन समझती हो, वह नरक का जीवन है। भगवान की कैसी माया है कि जिसे तुम नरक का जीवन और मैं स्वर्ग का जीवन समझती हूँ वह तुम्हें दिया है और जिसे तुम स्वर्ग का जीवन और मैं नरक का जीवन समझती हूँ, वह मुझे मिला है।

बालक—माँ, तुम तो देर कर रही हो, हमारे समाज में ठीक समय पर प्रार्थना आरंभ हो जाती है।

कमला—चलो, चलो, तुम्हारे समाज में चलती हूँ, बेटा, सच तो यह है कि तुम्हारे पिता के वर्षों के कार्य का भी मेरे मन पर प्रभाव न पड़ा, पर तुम्हारे दिनों के कार्य का पड़ रहा है।

सरला—देख लेना, यह बालक तुम्हारे इस नरक को स्वर्ग में परिणत करके रहेगा। ( बालक से ) क्यों मुझे अपने बाल-समाज में न ले चलोगे ?

बालक—हाँ-हाँ, चलिए, आप भी चलिए।

[ तीनों का प्रस्थान। पर्दा उठता है। ]

## चौथा दृश्य

स्थान—टाउन हॉल

समय—सन्ध्या

[ तीन श्रौर दीवालें हैं, जो सफेद कलई से पुती हैं। तीनों श्रौर की दीवालें में अनेक दरवाजे और खिड़कियाँ हैं, जिनके किवाड़ों में काँच लगे हैं। सभी दरवाजे और खिड़कियाँ खुली हैं, जिनसे बाहर के उद्यान का कुछ भाग दिखाई देता है, जो अस्त होते हुए सूर्य की सुनहरी किरणों से आलोकित है। हॉल की छत से विजली की बत्तियाँ और पंखे भूच रहे हैं। फर्श पर विछावन है, उस पर सभी प्रकार के लोग बैठे हैं। सामने एक तखत है। उस पर शलीचा विछा है। शलीचे पर एक कुर्सी और एक टेबल रखी है। टेबल पर टेबलक्लाथ है और उस पर फूलदान में फूल सजे हैं। ]

ट्रेड यूनियन का मंत्री—( खड़े होकर ) महाशयो ! हज़रात ! लेडीज एंड जेंटलमैन ! मैं प्रस्ताव करता हूँ, तजवीज पेश करता हूँ, रिज़ोल्यूशन मूव करता हूँ कि आज की सभा के सभापति, सदर, प्रेसीडेंट हमारे यहाँ के पारसी सेठ साहब मिस्टर बर्किंग वाक्सवाला बनाये जावे। ( बैठ जाता है )

एक आदमी—( खड़े होकर ) मैं इस तजवीज की तार्इद करता हूँ।

[ एक मोटा-सा बृद्ध पारसी, जो सफेद दिवाल के पारसी कालर का कोट और उसी कपड़े का पतलून पहने तथा सिर पर ऊँची काली पगड़ी लगाये हैं, उठकर कुर्सी पर बैठता है। ताली बजती है। ]

बर्किंग वाक्सवाला—( खड़े होकर ) आपकूँ मालुम हे कि वोटरों का ये मीटिंग इस बात कूँ ते कर देने कूँ बुलाया गया है कि इलेक्शन में किसकूँ वोट देना। अब इस मामले कूँ आपकूँ ट्रेड यूनियन का सेक्रेटरी साव मिस्टर अग्रवाला समजायगा ( बैठ जाता है )

अग्रवाला—खड़े होकर, इधर-उधर घूमते, हाथ हिलाते पैर पटकते हुए ) सभापति महोदय ! जनावे सदर ! मिस्टर प्रेसीडेंट ! महाशयो !

हजरात ! लेडीज़ ऐंड जेंटलमेन ! आज जिस बात का आपको निर्णय करना है, जिस बात का तस्क्रिया करने के लिए आप यहाँ तशरीक लाये हैं, जिस सब्जेक्ट पर आपको डिस्मिशन देना है वह बड़ा आवश्यक प्रश्न है, बहुत बड़ा अहम मसला है, आपके लाइफ़ ऐंड डेथ का क्वेश्चन है ।

कुछ व्यक्ति — हिअर हिअर, हिअर ।

अगरवाला—जिसे आप तीन वर्ष के लिए, तीन सालों के लिए, फ़ार थी लांग इयर्स, माइंड दैट धारासभा में निर्वाचित कर भेजते हैं, क़ानून बनाने की मजलिस में चुनते हैं, कौंसिल के लिए इलैक्ट करते हैं, उसे फिर आप तीन वर्ष के पूर्व, तीन सालों के पहले विक़ोर थी इयर्स, उस पद, उस ओहदे, उस पोज़ीशन से हटा नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, रिमूव करना इंपॉसिबल हो जाता है ।

कुछ व्यक्ति — ज़रूर, ज़रूर ।

अगरवाला—यह लगातार, मुतवातिर, कंटीन्युअसली, तीन वर्षों तक, तीन सालों तक, फ़ार थी लांग इयर्स, माइंड दैट, आपका प्रतिनिधि, आपका नुमाइंदा, आपका रिप्रेजेंटेटिव रहता है ।

कुछ व्यक्ति—वेशक, वेशक ।

अगरवाला—गत चुनाव में आप ने जिस साम्यवादी दल को निर्वाचित किया था, जिस... देखिए क्या कहते हैं, खैर, सब लोगों को एकसा कर देनेवाले जिस फिरक़े को चुना था, जिस सोशलिस्ट पार्टी को इलैक्ट किया था, उसने आपके हितों की कहाँ तक रक्षा की है, आपके इन्टरेस्ट्स को कहाँ तक सेक्यूरिटी किया है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए ग़ौर फ़रमाना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए ।

कुछ व्यक्ति ज़रूर, ज़रूर ।

अगरवाला—यह दल, यह फिरका, यह पार्टी, केवल कहने के लिए, सिर्फ़ नाम के लिए, ओनली इन नेम, साम्यवादी है, सोशलिस्ट

है। यथार्थ में, दरहकीकत, इन रिअलटी, इसके सब सदस्य, नुमायंदे, मेंवर्स स्वार्थी हैं, खुदगारज हैं, सैलफिश हैं।

कुछ व्यक्ति—हिअर हिअर, हिअर हिअर।

अगरवाला—इतना ही नहीं महाशयो ! इतनी ही नहीं विरादरान ! इतना ही नहीं लेडीज़ ऐंड जेंटलमेन ! सब धूर्त और प्राखंडी हैं, सब घोखेवाज और दगावाज हैं, सब ट्रेटर्स और स्काउंड्रैल्स हैं।

कुछ लोग—हिअर हिअर, हिअर हिअर।

अगरवाला—इन्होंने गत तीन वर्षों तक कितना लाभ उठाया, गुजिस्ता तीन सालों में कितनी खुदगर्जों की, हाउ सैलफिश दे हैड वीन फार दि लास्ट थी इयर्स, इस पर थोड़ा-सा विचार कोजिए, तह में जाकर जरा गौर करमाइए, थिक ओवर दो होल प्रॉवलेम।

कुछ लोग—वेशक, वेशक।

अगरवाला—देखिए, सज्जनो ! हजरात ! लेडीज़ ऐंड जेंटलमेन ! इसके लीडर मिस्टर शक्तिपाल, जो अपने को कामरेड कहते हैं, सोशलिस्ट बतलाते हैं, कहते हैं सब संपत्तिशालियों, जायदादवालों, प्रापर्टी होल्डर्स की संपत्ति समाज को हो जाना चाहिए, मुल्क की हो जाना चाहिए, नेशनलाइज कर डालना चाहिए, सबकी आय बराबर हो जाना चाहिए, सबकी आमदनी एक-सी तकसोम हो जाना चाहिए, सबकी इनकम का ईकॉल डिस्ट्रोव्यूशन हो जाना चाहिए, सबके भोजन वस्त्र और घर, खाना-कपड़े और मकान, फूड क्लोद ऐंड हाउसिंग एक-से हो जाना चाहिए, उनकी ही दशा देखिए, उनके ही हाल पर गौर करमाइए, लुक ऐट हिज् ओन वे आफ् लिविंग।

एक आदमी—अरे, तीन हजार रुपये महीना चुपचाप जेब में रख लेता है।

दूसरा—बड़ा अच्छा खाना खाता है, विलायत के वावर्चों का बनाया हुआ।

तीसरा—और पैरिस के बने कपड़े पहनता है ।

चौथा—उम्दा-से-उम्दा बँगले में रहता है ।

कुछ व्यक्ति—शेम, शेम, शेम, शेम ।

अगरवाला—विलकुल ठोक । आप लोग स्वयं ही सब कुछ जानते हैं, खुद ही सब हालात से वाक़िफ़ हैं, यूँ आल हैव ए कान इन-साइट । साम्यवाद, सोशलिज़्म का राज, उस की हुकूमत, उस का रन यों हो सकता है ?

कुछ लोग—हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं ।

अगरवाला—उनके शेष सब लोग भी, बाक़ी के हज़रात भी, दि अदर मेंवर्स आलसो, ऐसे ही हैं । अधिक भाषण की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा लंबी तकरीर को जरूरत नहीं है, नो लांग स्पीच इज़ रिक्वायर्ड; कहिए आप इनको वोट देंगे ?

ज़ोर की आवाज़ें—कभी नहीं, कभी नहीं ।

अगरवाला—तो अब महाशयो ! हज़रात ! लेडीज़ ऐंड जेंटलमेन ! मैं एक प्रस्ताव आप की सेवा में उपस्थित करता हूँ, एक तजवीज़ आप की ख़िदमत में पेश करता हूँ, एम मूविंग ए रिज़ोल्यूशन नाउ । ( जेब में से एक कागज़ निकाल कर पढ़ता है । ) “यह मतदाताओं की सभा निश्चय करती है कि श्रीयुत शक्तिपाल वर्मा का साम्यवादी हल स्वार्थियों का एक गुट है, अतः अगले निर्वाचन में उसे कोई मत न दे ।” उर्दू और अंगरेज़ी में इस का यह मतलब.....

ज़ोर की आवाज़ें—हम सब समझ गये ।

अगरवाला—अच्छी बात है । ( बैठता है, ताली बजती है । )

वर्किंग बाक़सवाला—( खड़े हो कर ) अब इस रिज़ोल्यूशन कूँ मिस्टर विनयकुमार मजूमदार टेका आएगा । ( बैठ जाता है । )

एक बंगाली—( खड़े हो कर ) शैभापती महाशय ! और महाशय लोगों ! हम ईश रिज़ोल्यूशन का सन से शैकिंड करेता हूँ ( कुछ तालियाँ

बजती है ) हमारा शुजलां शुफलां मलयज शीतलां जोठो बंगभूमि है, ऊश का लोग हँमारा बंगला भाई जोठो शेक्रेटरियेट में काम करता ऊन शँव लोग शे हँम खूव ठो मिलता हूँ । ऊन शँव लोग को ईन अँपकंटी का शाला खोट्टा लोग का ईश सोशलिस्ट पार्टी और ऊश का लीडर ने खूव ठो तंग किया है ।

कुछ व्यक्ति—शेम शेम ।

बंगाली—ऊनका रँविवार का वी छुट्टी नेई । रात-रात खूव ठो काम करँना पँड़ता है । ( हाथ हिना कर ) कोई बंगला भाई ईश पार्टी को वोट नेई दे । ( बैठ जाता है, ताली बजती है । )

वर्किङ्ग ब्राक्सवाला—( खड़े होकर ) अब इस रिजोल्यूशन कूँ सरदार निहालसिंह टेका आयेगा । ( बैठ जाता है । )

एक सिख—( हाथ में मोटा सा डंडा ले खड़े हो कर ) अरे, इक्क भी हुशयार ठेकेदार इस पार्टी दे नेड़े नई जायगा । पी० डब्ल्यू० डी० ने इक्क दो ठेकेदारों दी ईमार्त गिराई हो, हज्जारों दी गिरा दई ।

कुछ व्यक्ति—शेम शेम ।

सिख—( आँख और हाथ से इशारा करता है । ) क्यूँ पंजाबी भाई ! बात समझ लई ।

कुछ व्यक्ति—समझ लई ।

सिख—अगर कोई नामर्दा डर दे वोट देने जावे, तो उस दी ना सुणो । वहादुरी से इस तराँ ( मोटा धुमा कर ) इक्क दो तीन । सोटे दा कम बड़ा आँखा है । सत श्री अकाल । ( बैठता है । )

जनता—बोले सो निहाल ।

वर्किङ्ग ब्राक्सवाला—( खड़े होकर ) अब इस रिजोल्यूशन कूँ उरकुड़ा पँवार टेका आयेगा ( बैठता है । )

एक मराठा—( खड़े होकर अपनी बड़ी-सी-लाल पगड़ी समझालते हुए ) पोलपाट लाटणा लेकर घर में पतल्या पतल्या पोल्या लटवाता और



खाता है, चांगला-चांगला, कापड़ पेनता है, मोठ्या-मोठ्या बंगल्या में रेता है और सोशलिस्ट बनता है। कोलसा जितका उगलावा तितका काला। और उसका साथी—सुई आगे दोरा।

कुछ व्यक्ति—शेम शेम !

मराठा—रांगड़ा कहीं का। उसको और उसका साथी को कोई मराठा वोट नहीं देगा। ( बैठता है। ताली बजती है। )

वर्किंग वाक्सवाला—( खड़े होकर ) तो आप सबकुँ ये रिजल्यूशन मंजूर है ?

जोर की आवाज़—मंजूर है।

वर्किंग वाक्सवाला—अब ये सीटिंग खतम होता है।

[ लोग उठते हैं, पर्दा गिरता है। ]

### पाँचवाँ दृश्य

स्थान—सेवाकुटी के शहर का मैदान। समय—सन्ध्या।

[ दीनानाथ और कमला का प्रवेश ]

कमला—( चारों ओर देख कर ) तो इन संस्थाओं के लिए वे इमारतें कुटी के दोनों ओर बनेंगी ?

दीनानाथ—हाँ, कमला, दोनों ओर।

कमला—कितने दिन में बन जायँगी।

दीनानाथ—शीघ्र ही, कमला। कुछ बहुत बड़ी तो बनना नहीं है। अब संस्थाओं का काम फुट-फैल स्थानों पर क्रिश्च के सकानों से नहीं चलता, इसी लिए छोटे-छोटे सकान बनना देना है। इस निर्धन देश में इतना धन ही कहाँ है, जो संस्थाओं की भी बड़ी-बड़ी इमारतों में व्यय किया जाय।

कमला—और कुटी ऐसी ही रहेगी ?

दीनानाथ—कुटी के परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। हम

लोगों का काम इतने में अच्छी प्रकार चल जाता है ।

कमला—पर वे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, उनका विवाह आदि भी तो होगा या नहीं ?

दीनानाथ—यह उनकी इच्छा पर निर्भर है । फिर जब वे विवाह करेंगे तो स्वयं अपना प्रबन्ध सोचेंगे, हमें उसकी चिन्ता की क्या आवश्यकता है ?

कमला—परन्तु....

[ दो युवकों का प्रवेश ]

एक युवक—(दीनानाथ से) चुनाव में शक्तिपाल और उसका साम्यवादी दल हार गया ।

दीनानाथ—वह तो भासता ही था, क्योंकि कोई प्रभावशाली व्यक्ति तो इस बार उनके दल की ओर से खड़े ही नहीं हुए थे ।

दूसरा युवक—उनके दल को लोगों ने धोखा भी दिया । उनकी मोटरों में बैठ कर गये, पर वोट उनके दल के उम्मीदवारों को नहीं दिये ।

दीनानाथ—तो शक्तिपाल का साम्यवाद समाप्त हो गया ? मैंने उनसे कहा था कि इस देश में इस समय साम्यवाद इस प्रकार स्थापित नहीं हो सकता, परन्तु ( कुछ ठहरकर ) ठहरो-ठहरो, कमला तुमने देखा मेरे हृदय का स्वार्थ ? पहचाना इस स्वार्थ को ? स्वार्थ ! ओह ! ( सिर हिलाकर ) यह स्वार्थ बड़ी अद्भुत वस्तु है ।

कमला—( अशर्च से ) इसमें आपका क्या स्वार्थ हो सकता है ?

दीनानाथ—कमला, तुम अब तक नहीं समझती, अब तक नहीं ।

( एक युवक से ) तुमने इस स्वार्थ को पहचाना ?

युवक—( कुछ सोचकर ) जी, मुझे भी कुछ ज्ञात नहीं होता ?

दीनानाथ—( दूसरे युवक से ) तुमने पहचाना ?

युवक—( कुछ सोचते हुए ) जी, मेरी समझ में भी नहीं आता ।

दीनानाथ—सुनो, मुझे शक्तिपाल और उसके दल की हार से हर्ष

हुआ है। मैं तो चुनाव में खड़ा नहीं हुआ था, न मेरा कोई दल ही था, तुम कहोगे, मेरा प्रत्यक्ष तो कोई स्वार्थ नहीं था।

एक युवक—अवश्य पिताजी।

दूसरा युवक—निःसंदेह।

दीनानाथ—ठीक है, पर इसमें मेरा सूक्ष्म स्वार्थ था और उसका एक आधार है। जब शक्तिपाल एल-एल० वी० पास हुए थे, उस समय इस बात पर वाद-विवाद हो गया था कि मुझे क्या करना चाहिए। शक्तिपाल ने मेरे इस त्यागपूर्ण दीनसेवा के सेवा-पथ को निरर्थक बताया, राजनीतिक सत्ता द्वारा साम्यवाद की स्थापना करना अपना सेवा पथ बताया था। उनका मत था कि व्यक्तिगत स्वार्थत्यागपूर्ण जीवन और दीनों की सेवा से कुछ नहीं हो सकता, और मेरा मत था कि हर बात के लिए सबसे पहले व्यक्तिगत जीवन के स्वार्थत्यागपूर्ण होने एवं जब तक दीन-दुखी हैं तब तक उनकी सेवा करने की आवश्यकता है। आज जब शक्तिपाल और उनका दल हार गया, तब मुझे इसलिए हर्ष हुआ कि एक प्रकार से उनका मत हारा। विषय-वासनाओं के त्याग के पश्चात् अपनी अकीर्ति सुनकर मुझे दुःख हुआ था। क्योंकि कीर्ति सुनने का मेरा स्वार्थ मेरे हृदय में शेष था। अब अपने विरुद्ध मत की हार सुन मुझे हर्ष हुआ है, क्योंकि मेरा मत ही सर्वोत्तम सिद्ध हो, इसका मुझे स्वार्थ है।

एक युवक—परन्तु, पिताजी, अपने मत को सर्वोच्च सिद्ध करने का यत्न किये बिना, उस मत के द्वारा संसार की सेवा कैसे हो सकती है ?

दीनानाथ—अपने मत के प्रचार का प्रत्येक को अधिकार है, पर दूसरे का मत मेरे मत से नीचा है और दूसरे के मत की हार होकर मेरे मत की विजय हो, यह प्रवृत्ति उस मत में आसक्ति है। संसार, उस के सम्मुख सर्वोत्तम मत आते ही स्वयं उसे ग्रहण कर लेता है। तुम लोगों को ये बातें बहुत छोटी-छोटी मालूम होती होंगी, पर हृदय की ये

छोटी-छोटी-प्रवृत्तियाँ यथार्थ में बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। इनके अव्यक्त रहने के कारण ये स्थूल दृष्टि से महत्त्व की नहीं देख पड़तीं, पर संसार में विद्युत्, वाष्प आदि अव्यक्त शक्तियों के समान ही ये भी बड़ी ही प्रबल होती हैं। यह स्वार्थ बड़ी सूक्ष्म, प्रबल और अव्यक्त शक्ति है। अब तक मैं स्वार्थ पर विजय प्राप्त नहीं कर सका हूँ, अभी तक यह परास्त नहीं हुआ है। न-जाने इस पथ में अभी तक कितनी सीढ़ियाँ शेष हैं, न-जाने अभी मुझे कितनी परीक्षाएँ और देने हैं। हाँ इतना अवश्य है कि यात्रा लंबी उसे ही जान पड़ती है, जो थक गया हो। मैं अपनी यात्रा से अभी थोड़ा भी थकित नहीं हुआ हूँ, थोड़ा भी नहीं।

दूसरा युवक—पिताजी, जैसे आप हो गये हैं, वैसे हो जाने पर भी आप सदा अपने में दोष ही देखा करते हैं।

दीनानाथ—( कुछ सोचते हुए ) हाँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ा दोष अपना दोष न देखने को समझता हूँ !

[ यवनिका पतन ]

## तीसरा अंक

### पहला दृश्य

स्थान—सेवा-कुटी के बाहर का मैदान

समय—तीसरा पहर

[ अब मैदान खाली नहीं है। बीच में दूर पर तो पहले वाली कुटी ही दीखती है, पर उसके दोनों ओर छोटी-छोटी इमारतें बन गई हैं। उन पर 'बाल-समाज', 'युवक-संघ', 'छात्रावास', 'राशि पाठशाला', 'कृषक-पत्र', 'कृषक-प्रेस', 'अनाथाश्रम', 'व्यायामशाला', 'श्रीषधालय', 'सेवा-संघ', के साइनबोर्ड लगे हैं। कमला और सरला बीच के मैदान में बैठी हुई चरखा चला रही हैं। ]

सरला—कमला, आज मुझे तीन वर्ष पूर्व की एक बात स्मरण

पर प्रेम करने की अपेक्षा उसे व्यवहार में ला कर उस व्यवहार में ही सच्चा सुख प्राप्त करना विरले मनुष्यों के ही भाग्य में रहता है। वहन, तुम्हारे पति का सा सौभाग्य बहुत थोड़े सौभाग्यशालियों का होता है।

[ कुछ देर दोनों चुप रह चरखा चलाती-चलाती इधर-उधर देखती हैं। ]

सरला—क्यों, कमला, एक बात बताओगी ?

कमला—पूछो, वहन।

सरला—चारों ओर के इन गृहों में जो संस्थाएँ हैं इन में, और देश में जो इसी प्रकार की अन्य संस्थाएँ हैं उन में, क्या अन्तर है ?

कमला—( कुछ सोच कर ) क्या अन्तर है, वहन, कुछ तो नहीं जान पड़ता।

सरला—वरन् देश की अधिकांश संस्थाएँ इन संस्थाओं से कहीं बड़ी हैं।

कमला—हाँ !

सरला—उन बड़ी-बड़ी संस्थाओं और इन में दो महान् अन्तर हैं। ये अन्तर पहले मेरी समझ में नहीं आते थे, पर अब धीरे-धीरे आप से आप वे मुझे दिखाई देने लगे हैं।

कमला—( उत्सुकता से ) वे क्या हैं, सरला ?

सरला - एक तो इन संस्थाओं के पीछे जो त्यागपूर्ण हृदय है, इनके पीछे इन के संस्थापक का जो आदर्श और जाबज्वल्यमान उच्च चरित्र है, जो हृदय इन संस्थाओं का जीवन प्राण है और जिस पवित्र चरित्र से ये शासित होती हैं, वह उन बड़ी-बड़ी संस्थाओं में कहाँ ? दूसरे, वहन, ये संस्थाएँ केवल श्रीमानों के दान से नहीं चलतीं, वरन् चारों ओर के निर्धन कृपक और मजदूर अपने रक्त का पानी कर जो आय करते हैं, प्रधानतः उस दान से चलती हैं। वे इन के लाभों से परिचित हो गये हैं, अतः वे अपनी थोड़ी-सी आय में से भी कौड़ी-कौड़ी जोड़ कर सहर्ष इनके लिए आप से आप धन देते हैं और इन्हें अपनी समझते हैं।

कमला—हाँ, वहन, ये दो अन्तर तो अवश्य हैं, और सच्चे अन्तर हैं।

सरला—तुम्हारे पति ने क्या-क्या कर डाला है कमला ? महात्मा गांधी का कोई भी शिष्य यह न कर सका, जो उनके इस शिष्य ने किया है। इन संस्थाओं को स्थापित किया है यही नहीं, यह तो उन का छोटे से छोटा कार्य है, स्वार्थ त्याग के पथ में उन्होंने जो महान् लोकमत तैयार किया है, वह देखो।

कमला—तो संस्थाओं से लोकमत बड़ी वस्तु है ?

सरला—इस में क्या सन्देह है, उस लोकमत से ऐसी संस्थाएँ तो न जाने कितनी हो जायँगी। देखती नहीं, उनके आदर्श चरित्र और उपदेश के कारण जनता के हृदय पर कैसा अद्भुत प्रभाव पड़ा है। कितने एक दूसरे के लिए त्याग करने में अपना गौरव समझने लगे हैं। जो स्वार्थ को नहीं छोड़ते, वे नीची दृष्टि से देखे जाते हैं, यद्यपि उन का यही उपदेश है कि सब को समानता और प्रेम से देखो। एक दूसरे से प्रेम करने की प्रवृत्ति कितनी बढ़ गई है। पतित कार्यों से दूर रहने की आकांक्षा की कितनी उत्पत्ति हुई है। जर्मांदारी रहते हुए भी अधिकांश जर्मांदारों के हृदय में ऐसा परिवर्तन हो गया है कि उन्हें स्वयं किसानों की कमाई खाने में लज्जा आती है, वे उसे उन्हीं के हित के लिए दान कर देते हैं। अधिकांश महाजन व्याज खाने में सकुचाते हैं।

कमला—हाँ, हुआ तो यही है।

सरला—फिर केवल आत्मिक और मानसिक उन्नति हुई है। इतना ही नहीं, इसके कारण आधिभौतिक उन्नति भी हुई है, क्योंकि लोगों के आपसी कलह की कमी के कारण धन वचता है और आपसी सहयोग है। कर्मण्य होने एवं आलस्य के नष्ट होने से समय वचता है और उसका सदुपयोग होता है। ग्राम कैसे साक-सुथरे रहते हैं, नये आविष्कारों के उपयोग से कृषि की कितनी आय बढ़ गई है। सभी गाँवों में

[ कुछ देर तक चुप होकर दोनों चरखा चलाती हैं ]

कमला—क्यों वहन, अब श्रीनिवासजी का क्या हाल है ?

सरला—( लथी साँस लेकर ) और भी बुरा, कमला ।

कमला—कैसा ?

सरला—तुम यह तो जानती हो कि अब हमारे घर की संपत्ति प्रायः नष्ट हो चुकी है । रुपया कमाना तो मुई से खोद कर पानी निकालने के समान कार्य है, और खर्च करना उस पानी को बालू पर डालने के तुल्य । घर की संपत्ति नष्ट हुई हो इतना ही नहीं, कर्ज इतना बढ़ गया है कि बची हुई जायदाद, यहाँ तक कि रहने का मकान भी नीलाम होने वाला है, नौकरों-चाकरों को भी महीनों तक वेतन न मिलने से कई चले गये हैं ।

कमला—हाँ, यह तो छिपी हुई बात नहीं है; सभी जानते हैं ।

सरला—इतने पर भी उस मार्गरेट का और उनका साथ है ही ।

कमला—वह भी जानती हूँ ।

सरला—उस मार्गरेट के खर्च की दशा भी तुमसे छिपी नहीं है ।

कमला—मुझसे क्या, किसी से भी छिपी नहीं है ।

सरला—जब तक शक्तिपाल जी मिनिस्टर थे, तब तक उनके वेतन से भी उसका खर्च चलता था, पर अब सारा भार उन्हीं पर है । उनके पास रुपया नहीं, कर्ज भी तो अब नहीं मिलता, अतः उनके और मार्गरेट के भी भगड़े होने लगें हैं ।

कमला—( आश्चर्य से ) अच्छा !

सरला—क्या पृथ्वी ही सदा ही भगड़ा मचा रहता है । अब तक जिसे वे मुख मानते थे, वह मुख उन्हें तो कम-से-कम प्राप्त था, पर अब तो इन भगड़ों के कारण उनकी भी बुरी दशा है । क्षण-क्षण पर भुँभलाते हैं । इस भुँभलाहट को मिटाने के लिए मदिरा पान बढ़ा है और उससे भुँभलाहट कम होने की अपेक्षा उलटी बढ़ गई है । कर्मी-

कभी भुँभलाहट न-जाने कहाँ चली जाती है और वे चुपचाप बैठे-बैठे ऊँघते-से रहते हैं। जान पड़ता है, व्यथा के भार से वे ऊँघ रहे हैं। उस ऊँघने की अवस्था में उनके हृदय की आंतरिक व्यथा का एक कारुणिक दृश्य दिखाई देता है। (लम्बी साँस लेकर) कमला, अब तक मैं अपने ही दुःख से दुखी थी, पर अब उनका भी दुःख व्यथित किये डालता है।

कमला—सचमुच, वहन, तुम्हारा दुःख देख कलेजा मुँह को आता है।

सरला—तुम्हीं देख लो। तुम्हें श्रीमानों का जीवन बड़ा प्रिय था, (कुछ रुककर) फिर एक और आपत्ति है।

कमला—वह क्या ?

सरला—शक्तिपाल जी को भी यह सब वृत्तांत मालूम हो गया है। उनका स्वभाव तो तुम जानती-ही हो। पश्चिमो विचारों के मनुष्य हैं। न जाने वे किस दिन क्या कर बैठें। सुना है, वे तो शक्तिपाल जी से मिलने तक में डरते हैं। इसका प्रबन्ध कर रक्खा है कि शक्तिपाल जी हमारे घर में न आने पावें और वह मार्गरेट शक्तिपाल जी से लड़-भगड़ कर उनका घर छोड़ कर भाग गई है।

कमला—(घबराहट से) यह तो बड़ी भयानक बात है।

सरला—इसमें क्या कुछ सन्देह है ? (लंबी साँस लेती है)

कमला—फिर, वहन, क्या किया जाय ?

सरला—क्या किया जा सकता है, जो कुछ भाग्य में होगा, वह होकर रहेगा। ऐसे ही अवसरों पर तो मनुष्य को भाग्य का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है।

कमला—यदि उन्हें श्रीनिवास जी को समझाने के लिए भेजा जाय तो ?

सरला—उससे क्या होगा, कमला, उन्हें अब अपनी कृतियों से



स्वयं दुःख हो रहा है। परन्तु वे इतनी दूर तक आगे बढ़ गये हैं कि अब दुःख पाने पर भी अपने को रोक सकने की उनमें शक्ति नहीं रह गई है। दुरी दिशा में पैर रखने के पश्चात् उससे बचने का निर्णय कदाचित् तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि उस निर्णय को कार्य रूप में परिणत करना ही असम्भव न हो जाय।

कमला—फिर भी एक बार उन्हें भेजकर देखना तो चाहिए!

सरला—हाँ, हानि कोई नहीं है।

कमला—(जेब से एक चाँदी की घड़ी निकाल कर देखते हुए) उनके आने का समय भी हो रहा है। वे तो ठोक समय पर आ हाँ जावेंगे। आज ही उन्हें भेजूँगी।

[दोनों फिर चुप हो चरखा चलाने लगती हैं। परदा गिरता है]

## दूसरा दृश्य

स्थान—श्रीनिवास के मकान का दालान।

समय—तीसरा पहर।

[मार्गरेट का हाथ में बैग लिये हुए शीघ्रता से प्रवेश।

मार्गरेट—(झोर से) चपरासी! चपरासी!

[चपरासी का प्रवेश। वह सलाम करता है।

मार्गरेट—मिस्टर शानिवेश साव कहाँ पर हैं?

चपरासी—हुजूर, उनकी तवियत अच्छी नहीं है। वे सोने के कमरे में हैं।

मार्गरेट—अच्छा, टुम उनको इटला कर डो कि हम आया टा। एक काम को जाकर फिर आवी आटा।

चपरासी—जाँ हुक्म सरकार।

[मार्गरेट का शीघ्रता से एक ओर तथा चपरासी का दूसरी ओर प्रस्थान।]

[परदा उठता है।]

## तीसरा दृश्य

स्थान—श्रीनिवास का सोने का कमरा ।

समय—तीसरा पहर ।

[ कमरे के तीन ओर दीवालें हैं जो हरे तैल रंग से रंगी हुई हैं, जिस पर बेल-बूटे हैं । तीनों दीवालोंने कई दरवाजे और खिड़कियाँ हैं, जिनके किवाड़ों में काँच लगे हैं । कुछ दरवाजे और खिड़कियाँ खुले हैं और कुछ बंद । खुले हुए दरवाजे और खिड़कियों से पहाड़ियों के शिखर और आकाश दिखाई देता है, जिससे जान पड़ता है कि कमरा दुमंजले पर है । पहाड़ियाँ और आकाश सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं । कमरे के बीच में दो खम्भों पर डाट है । ज़मीन पर कालीन बिछा है और छत से बिजली की बत्तियाँ तथा सीलिंग फैन झूल रहे हैं । एक ओर पीतल का पलंग है, जिस पर मच्छरदानी पड़ी है । पलंग के पास ही खूंटियों का एक स्टैंड है जिस पर तौलिया और कपड़े टँगे हैं । दूसरी तरफ एक गद्दीदार सोफा और दो आराम कुर्सियाँ हैं । सोफा के सामने एक टेबल है । बीच में एक शीशे के दरवाजे की आलमारी है । उसी के निकट सिंगारमेज़ ( ड्रेसिंग टेबल ) रखी है, जिसमें काँच लगा है । उस टेबल के सामने एक कुर्सी है । श्रीनिवास दीला कुरता और पाजामा तथा स्लीपर पहने हुए सोफा पर बैठा है । कपड़े कुछ मैले हैं । सामने की टेबल पर हाथ की कोहनियाँ टिकाये हाथ पर मुख रखे है । आँखे बन्द हैं और वह बैठे-बैठे ऊँघ-सा रहा है । उसका शरीर और मुख कृश हैं तथा मुख पर अत्यधिक व्यथा दृष्टिगोचर है । हजामत बढ़ गई है । बाल फैले हुए हैं । टेबल पर शराब की बोतल और ग्लास भी रक्खा हुआ है । चपरासी का प्रवेश । ]

चपरासी—हुजूर मिसेज़ वर्मा साहवा अभी तशरीफ़ लाई थीं ।

श्रीनिवास—(चौंक कर) क्या ?

चपरासी—मिसेज़ वर्मा साहवा आई थीं ।

[ श्रीनिवास कुछ न कह केवल चपरासी की ओर देखता है ]

चपरासी—सरकार से इत्तिला करने को कह गई हैं कि एक काम के लिए जा रही हैं । अभी हुजूर से आकर मिलेंगी ।

[श्रीनिवास कुछ नहीं बोलता और मुख दूसरी ओर कर लेता है। चपरासी का प्रत्यान। चपरासी के जाने के पश्चात् श्रीनिवास सिर को और झुका कर हाथों से मुख ढाँप लेता है। कुछ देर के पश्चात् खाँसता है और सिर खुजाता है। फिर बोतल से शराब ग्लास में उँडेल कर पीता और खाँसता है। फिर सिर को टेबल पर रख लेता है। कुछ देर में एकाएक सिर उठा भृकुटी चढ़ा दाहिने हाथ की मुट्टी बाँध टेबल को ठोकता है और कहता है— 'मार्गरेट'। एकाएक खड़ा होकर कमरे में जल्दी-जल्दी टहलने लगता है। टहलते-टहलते खड़ा हो जाता है और ओठों को दाँतों से चबाकर पृथ्वी को दाहिने पैर से ठोकता है। कुछ देर को खड़ा हो चुपचाप एक ओर देखता है और एक लम्बी साँस लेकर खाँसता है। फिर टहलने लगता है। टहलते टहलते आलमारी के शीशे के सामने एकाएक खड़े हो चेहरा देखता है। फिर वहाँ से हटकर अपने पहने हुए कपड़े देखता और जोर से कड़कड़ा लगा कर हँस देता है। एकाएक सिंगार मेज़ के सामने जाकर कुर्शों पर बैठ उसकी दराज़ खोल हज़ामत बनाने का सन्दूक (शेविंग बॉक्स) निकाल ब्रश से साबुन लगा सेफ्टी रेजर से हज़ामत बनाना आरम्भ करता और खाँसता है, पर रुक जाता है। सन्दूक में कुछ हँदने लगता है। और एकाएक 'ब्लेड भी नहीं' कहकर सन्दूक को फेंक देता है। खूँटी के स्टैंड से एक तौलिया लेकर फिर उसी कुर्शों पर बैठ जाता है। तौलिये से मुँह का लगा हुआ साबुन पोंछ डालता है। मेज़ की दूसरी दराज़ खोलता है; उसमें से कंधा ब्रश और कागज़ से मढ़ी हुई एक शीशी निकालता है। शीशी का कार्ड खोल उसे हाथ पर धीरे-धीरे उँडेलता है और खाँसता है। पूरी शीशी उलटो कर देने पर भी उससे कुछ नहीं निकलता। चिल्लाकर 'ओह' कह शीशी फेंकता है, वह चूर-चूर हो जाती है। वहाँ से उठकर सोफा पर बैठ शराब को ग्लास में उँडेल पीता और खाँसता है। फिर हाथ मलने लगता है। एकाएक वहाँ से उठ आलमारी के निकट जाता और उसे खोल एक कमीज़ निकालता है। कुरता उतार कमीज़ की एक बाँह में हाथ डालता है। मार्गरेट का चपरासी के साथ प्रवेश। मार्गरेट को देख जल्दी से कमीज़ पहन बटन लगाते हुए श्रीनिवास उसकी ओर बढ़ता है और कुछ आगे बढ़ खड़ा हो जाता है। मार्गरेट खड़ी हो

श्रीनिवास को बिर पैर तक धूर कर देखती है। श्रीनिवास भी वैसा ही खड़ा-खड़ा मार्गरेट की ओर देखता है। कुछ नहीं बोलता। फिर श्रीनिवास खाँसता है। चपरासी एक ओर हटकर मार्ग में छिपकर खड़ा हो जाता है।]

मार्गरेट—ओ हाउ स्लवनली यू लुक मिस्टर शीनिवैश।

श्रीनिवास—( धृणा से मुसकराकर ) हाँ, अब मेरा मैलापन तो तुमको और भी अधिक दिखेगा, मिसेज वर्मा।

मार्गरेट—( आगे बढ़कर सोफा पर बैठते हुए ) टुम नेई जानटा, मिस्टर शीनिवैश, कि लेडीज को कोई जेंटलमैन इस टरा अपना अन-शेव्ड सूरट नेई दिखायगा।

श्रीनिवास—( पास की आरामकुर्सी पर बैठते हुए लंबी साँस लेकर ) पर मैं तो अब जेंटलमैन रहा ही नहीं, मिसेज वर्मा !

मार्गरेट—हाँ, हमको वी मालूम टो ऐसा ही होटा।

श्रीनिवास—क्यों न हो, मिसेज वर्मा, किसी देश की एक कहावत मुझे याद है कि जब गरीबी दरवाजे से आती है, तब प्रेम खिड़की से भाग जाता है। तुम्हारे मत में जेंटलमैन का जो पहला और अंतिम गुण रुपया है ( खाँसकर ) वह अब मेरे पास कहाँ है ?

मार्गरेट—नेई रुपया को हम जेंटलमैन का फर्स्ट और लास्ट क्या-लिक्रिकेशन नेई मानटा। कल्चर एंड रिफाइनमेंट वी टो कोई चीज है।

श्रीनिवास—और जिन्हें तुम कल्चर और रिफाइनमेंट कहती हो, वे रुपया के बिना कायम नहीं रक्खे जा सकते। ( खाँसता है ) अतः रुपया नहीं तो तुम्हें उन वस्तुओं से प्रेम है, जो रुपये बिना नहीं आ सकतीं।

मार्गरेट—खैर जाने डो इस भगरे को, इस वक्त टो हम टुमारा पास इसलिए आया कि ह्वाइट वे लैडला का वह सिक्सटीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू रुपीज का बिल का डेट आज खतम होता, उसको आज रुपया डेना ई होगा।

श्रीनिवास—( धृणा से हँसकर ) मेरे पास तो इस वक्त सोलह रुपये भी नहीं हैं, सोलह सौ तो दूर की बात है।

मार्गरेट—( क्रोध से ) टो हम क्या करेगा ? हमारा इज्जत जायगा।

श्रीनिवास—मेरी ही इज्जत जा रही है, मिसेज वर्मा, (खाँसकर) मैं तुम्हारी इज्जत कहाँ तक बचाऊँ।

मार्गरेट—(अत्यन्त क्रोध से) यूँ मे चोग, <sup>5 फुट</sup>बारी और <sup>चोरी</sup>स्टील, पर हमको दो ये रुपया देना ई होगा।

श्रीनिवास—(कुर्सी पर टिकते हुए) कर्ज मुझे अब मिलता नहीं, भीख माँगने से इतना कभी न मिलेगा, यह मैं जानता हूँ, और चोरी करना मैंने सीखा नहीं।

मार्गरेट—(चिल्लाकर) फिर यह भगारा किस टरा मितेगा; अभी दो केई बिल पेमेंट होना बाकी है।

[ शीघ्रता से शक्तिपाल का प्रवेश। शक्तिपाल को देख चपरासी चौंक-सा पड़ता है, पर वहीं दुबककर खड़ा रहता है। ]

शक्तिपाल—(क्रोध से) मैं अभी भगड़ा मिटाये देता हूँ। बड़ी मुश्किल से दोनों को इकट्ठा पाया है। दोनों एडल्ट्री और फ्रथलेसनेस का नतीजा भोगे।

[ शक्तिपाल की बोली सुन और उसे देखकर श्रीनिवास और मार्गरेट दोनों चौंककर खड़े होते हैं और काँपते हुए भागने पर उद्यत होते हैं। ]

शक्तिपाल—(जेब से पिस्तौल निकालते हुए गरजकर जल्दी से) खबरदार ! अगर भागे। बदमाशो ! तुम अब नहीं बच सकते।

[ शक्तिपाल मार्गरेट पर पिस्तौल चलाता है। गोली चूक जाती है। दोनों भागकर कमरे के बीच के दोनों खंभों की आड़ में होते हैं। चपरासी भी भाग जाता है। शक्तिपाल दूसरी गोली मार्गरेट के खंभे की ओर चलाता है, पर वह भी नहीं लगती। दीनानाथ का दौड़ते हुए प्रवेश। ]

दीनानाथ—(चिल्लाकर) हैं ! हैं ! यह आप क्या कर रहे हैं।

शक्तिपाल—(चौंक कर) आप ! परे हट जाइए आप भी, मैं इन दोनों पाजियों को बगैर मारे न छोड़ूँगा।

[ शक्तिपाल श्रीनिवास के खंभे की ओर बढ़ता है, दीनानाथ भी उसी तरफ। शक्तिपाल श्रीनिवास की ओर लक्ष्य कर पिस्तौल चलाता है। उसी समय दौड़कर बीच में दीनानाथ आ जाता है। गोली श्रीनिवास को न लगकर दीनानाथ

की जाँघ में लगती है । खून बहने लगता है । वह गिरता है । शक्तिपाल चौंक पड़ता है । उसका मुख देख स्पष्ट जान पड़ता है कि उसका सारा क्रोध ही उड़ गया है । वह दीनानाथ की ओर दौड़ता और पिस्तौल को एक ओर रख उसे सम्हालता है । ]

शक्तिपाल—( भराये हुए स्वर में ) हैं ! यह मेरे हाथ से क्या हुआ ! जिसकी मैं इतनी इज्जत करता हूँ, वह मेरे हाथ से...हाथ !

मार्गरेट—( खंभे की आड़ में से निकल भागते हुए ) डेम यू आल !

[ मार्गरेट भाग जाती है । श्रीनिवास काँपते हुए खंभे की आड़से थोड़ा-सा खिर निकाल शक्तिपाल और दीनानाथ की ओर देखता है और खाँसता है । ]

दीनानाथ—आप चिंतित न होइए, शक्तिपाल जी, मैं मरूँगा नहीं गोली जाँघ में लगी है ।

शक्तिपाल—( दौड़कर तौलिया लाते हुए ) लेकिन, दीनानाथ जी मेरे हाथ से इतना बड़ा पाप हुआ कि इसका कोई प्रायश्चित्त भी नहीं है ।

दीनानाथ—है, शक्तिपाल जी, क्या आप उसे करेंगे ?

शक्तिपाल—( दीनानाथ के पैर में तौलिया ब्रँधते हुए उत्सुकता से ) हुक्म दीजिए, दीनानाथ जी, फौरन तामील होगी ।

दीनानाथ—बचन देते हैं ?

शक्तिपाल—एक दफ़ा नहीं, जितनी दफ़ा आप कहें ।

दीनानाथ—आप श्रीनिवास जी और मार्गरेट को क्षमा कर दें ।

शक्तिपाल—( आँखों में आँसू भर कर ) ऐसा ही हो ।

[ शक्तिपाल पिस्तौल, जो निकट रखी थी, उसे उठाकर दूर फेंकता है । श्रीनिवास खंभे की आड़ में से निकल दीनानाथ के पैरों पर गिर पड़ता है । ]

दीनानाथ—यह आप क्या कर रहे हैं, यह आप क्या कर रहे हैं ?

शक्तिपाल—अच्छा, ये बातें फिर होंगी, इस वक्त तो दीनानाथ जी को हॉस्पिटल में ले चलना होगा, क्योंकि शायद गोली अन्दर हो । सवारी का इन्तजाम कीजिए ।

श्रीनिवास—( जाते हुए ) मैं अभी सवारी मँगाता हूँ ।  
( जाता है । )

शक्तिपाल—( कुछ ठहर कर लम्बी साँस लेकर ) दीनानाथ जी, मेरे दिल में हमेशा आपकी इज्जत रही है, पर जितनी ज्यादा वह आज हो गई, उतनी कभी न थी। आज मुझे मालूम हुआ कि आप जिसे अपना सेवा-पथ कहते हैं, वह किस तरह का है और उस पर चलते चलते आप कैसे हो गये हैं। रुपया खत्म होने से उसके जरिये की जाने वाली खिदमात भी खत्म हो सकती हैं। सियासी रास्ते से जो खिदमत की जाती है, उसे आज भी मैं जरूरी मानता हूँ, पर वह भी बहुत दूर तक दूसरों पर मुनहसिर होने के सबब रुक सकती है। हाँ, जिनकी खिदमात सिर्फ दिल और बदन के जरिए हैं, उनकी खिदमात हर वक्त और हर मौके पर जारी रह सकती हैं। दीनानाथ जी, अगर मैं आज के कुसूर में जेल गया, तब तो दूसरी बात है, नहीं तो आज से, जब तक फिर सियासी तरीकों से मुल्क की खिदमत करने का मौका मुझे नहीं मिलता, तब तक मेरा तमाम वक्त और ताकत आपके कब्जे में है। जो हुक्म आप मुझे देंगे, वही मैं करके आज के पाप का प्रायश्चित्त करूँगा।

दीनानाथ—आपके सदृश ईमानदार, सच्चा और कार्यपटु सहायक पाकर आज मैं कृत्यकृत्य हो गया, शक्तिपाल जी। मैंने राजनीतिक सेवा को कभी कम महत्त्व का नहीं समझा, पर जिस पथ पर मैं चल रहा हूँ, उसका सुख ही निराला है, वह जब आप उस पर चलेंगे, तब आपको मालूम होगा। आपका जेल जाना असम्भव है, जिस परिस्थिति में आपने गोली चलाई है, उस परिस्थिति में गोली चलाना कानूनन भी क्षम्य है।

श्रीनिवास—( प्रवेश कर ) सवारी तैयार है।

शक्तिपाल—स्ट्रेचर मँगाना होगा।

दीनानाथ—( उठते हुए ) नहीं, मैं आप दोनों के सहारे सवारी तक चल सकूँगा।

[ दोनों के सहारे खड़े होने का प्रयत्न करता है ]

[ यवनिका पतन ]

